



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25—अगस्त 31, 2012 (भाद्रपद 3, 1934)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25—AUGUST 31, 2012 (BHADRA 3, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2012

थल सेना शाखा

इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 332, दिनांक 26 जुलाई 2012—राष्ट्रपति महोदय, अभियंता कुमार सिंह को दिनांक 26 अप्रैल 2011 (पूर्वाह्न) से ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक अधिशासी अभियन्ता समूह 'क' के पद पर नियुक्त करते हैं। ये दो वर्षों के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति महोदय, रामावतार मीणा को दिनांक 08 अगस्त 2011 (पूर्वाह्न) से ईएमई कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक अधिशासी अभियन्ता समूह 'क' के पद पर नियुक्त करते हैं। ये दो वर्षों के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

एस के तंवर

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 333 दिनांक 26 जुलाई 2012—राष्ट्रपति, (भूतपूर्व अधिकारी टीए-42308 ले पंकज खुराना) अब टीए-42792 ले पंकज खुराना को

दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से कमीशन प्रदान करते हैं तथा प्रादेशिक सेना विनियम 1948 से पैरा 25(ए) तथा 38(ए) के तहत वेतन तथा पदोन्नति के लिए पिछली तिथि से निम्नानुसार वरीयता प्रदान करते हैं:—

प्रादेशिक सेना में पुनः कमीशन प्राप्त करने पर वेतन वृद्धि हेतु प्रादेशिक सेना की पूर्ण एम्बोडिड सर्विस 02 वर्ष और 109 दिन तथा 1/4th एन एम्बोडिड सर्विस 204 दिन (कुल सर्विस 02 साल और 109 दिन + 204 दिन = 02 साल और 313 दिन) की गणना की जाती है।

प्रादेशिक सेना में सभी पूर्व सर्विस की गणना उसकी पदोन्नति में की जाएगी (कुल सर्विस 04 साल, 06 महीने और 24 दिन)।

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन के रैंक में

टीए-42792 ले पंकज खुराना को इन्फैन्ट्री टीए में दिनांक 26 मई 2006 से लैफ्टि और दिनांक 26 मई 2010 से कैप्टन बनाया जाता है।

वी राजाराम

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 334, दिनांक 27 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नामों के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से मूल लेफ्टि कर्नल के रैंक में

मेजर राकेश शर्मा (वी-549एन), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

मेजर मोहम्मद मेहबूब उर-रहमान (वी-550एच), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

मेजर विनीत बुट्टेला (वी-551एल), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

मेजर नीरज गुप्ता (वी-553वाई), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

मेजर मानव देशवाल (वी-554वाई), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

मेजर भूपेन्द्र बिशनोई (वी-555एफ), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

मेजर नितिन शेओरन (वी-563ए), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

मेजर विकास कुमार सिन्हा (वी-570डब्ल्यू), आरवीसी, 11 दिसम्बर 2011

टी सी शर्मा

अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 335, दिनांक 27 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

लेफ्टि कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय-मान द्वारा)

(आईसी-37946के) जे एस डिलोन, इन्फैन्ट्री, 11 नवम्बर 2008

(आईसी-43023पी) गुर अवतार सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 08 जून 2011

(आईसी-43081वाई) जी एस बाबा, गार्ड्स, 08 जून 2011

(आईसी-43286एन) जे एस शरण, इन्फैन्ट्री, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43373एफ) एमसीआर बाबू, इन्फैन्ट्री, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43425एम) के एल विशनोय, एएससी, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43448एन) आईएस वेन्स, एएससी, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43470वाई) वी एस मलाई, इन्फैन्ट्री, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43503डब्ल्यू) ए जे अलेक्सजेण्डर, एओसी, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43518एफ) श्रवण कुमार, इन्फैन्ट्री, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-43583एफ) राहुल ग्रोवर, एसी, 14 दिसम्बर 2011

(आईसी-45141एफ) डी एस बिष्ट, आर्टी, 10 नवम्बर 2009

(आईसी-45386एक्स) जगजीत सिंह, ईएमई, 24 अप्रैल 2011

(आईसी-45450के) जे एस कोकर, ईएमई, 07 नवम्बर 2011

(आईसी-45464के) एस के गुप्ता, ईएमई, 07 नवम्बर 2011

(आईसी-45491एन) जे एस लाले, आर्टी, 07 नवम्बर 2011

(आईसी-45519एच) सी के अग्रवाल, जैग, 07 नवम्बर 2011

(वी-00401पी) एस डी शर्मा, आरवीसी, 10 फरवरी 2012

(वी-00405एल) एस सी गट्ट, आरवीसी, 10 फरवरी 2012

(वी-00406एन) अभय सिंह, आरवीसी, 10 फरवरी 2012

(वी-00421एच) एस के अग्निहोत्री, आरवीसी, 10 फरवरी 2012

(वी-00426एफ) नरेन्द्र सिंह, आरवीसी, 10 फरवरी 2012

टी के दास

उप निदेशक एमएस-8ए

सं. 336, दिनांक 30 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर के रैंक में

कैप्टन एस एस नागी (टीए-42370), इंजीनियर टीए, 20 मार्च 2006

कैप्टन पी जे त्रिवेदी (टीए-42378), इंजीनियर टीए, 03 जुलाई 2006

कैप्टन अमरजीत साहू (टीए-42562), इंजीनियर टीए, 06 जनवरी 2011

कैप्टन एस एन अग्रवाल (टीए-42580), इंजीनियर टीए, 01 मई 2010

कैप्टन सतीश कुमार (टीए-42587), इंजीनियर टीए, 08 दिसम्बर 2011

कैप्टन आर विक्रम सतीश (टीए-42589), इंजीनियर टीए, 15 दिसम्बर 2011

कैप्टन महेश चन्द गोस्वामी (टीए-42595), इंजीनियर टीए, 04 फरवरी 2012

वी राजाराम

अवर सचिव

सं. 337, दिनांक 30 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना अभिलेख

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार मनोहर सिंह (सं. 14404021एक्स अब जेसी-277257पी),
01 नवम्बर 2011

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 14414460डब्ल्यू अब जेसी-277258एक्स), 01 नवम्बर 2011

हवलदार देवेन्द्र नाथ यादव (सं. 15119070पी अब जेसी-277259ए),
01 नवम्बर 2011

हवलदार राकेश कुमार (सं. 15122431एन अब जेसी-277260पी),
01 नवम्बर 2011

हवलदार गिरिश आर (सं. 14408900एच अब जेसी-277261एक्स),
22 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 14420505एफ अब जेसी-277262ए),
16 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार ध्रुव कुमार (सं. 14416472के अब जेसी-277263एच),
23 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 14429312एच अब जेसी-277264एल),
19 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार विनोद कुमार यादव (सं. 15141925एम अब जेसी-277265एन), 15 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार कुमार पालागी (सं. 14428767एम अब जेसी-277266डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार एम डी अझाझ अख्तर (सं. 15139956एन अब जेसी-277267वाई), 15 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार मुरली दास के (सं. 14417792एल अब जेसी-277268एफ),
26 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार एस सुरेश कुमार (सं. 14426933डब्ल्यू अब जेसी-277269के), 13 सितम्बर 2011/22 अगस्त 2011 *

हवलदार सी श्रीधर (सं. 15206114एक्स अब जेसी-277270वाई),
21 नवम्बर 2011/28 जुलाई 2011 *

हवलदार कोन्डाय्या कालुकुरी (सं. 14410096एल अब जेसी-277271एफ), 17 अक्टूबर 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 14403205के अब जेसी-277272के),
12 सितम्बर 2011/20 अगस्त 2011 *

हवलदार महादेवन पिल्ले एम (सं. 14403675पी अब जेसी-277273एम), 21 सितम्बर 2011/20 अगस्त 2011 *

हवलदार ज्ञान सिंह (सं. 14408917डब्ल्यू अब जेसी-277274पी),
18 अक्टूबर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 15119259एम अब जेसी-277275एक्स),
09 अक्टूबर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार दिवाकर सिंह (सं. 14409554के अब जेसी-277276ए),
02 सितम्बर 2011/01 सितम्बर 2011 *

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 14402617एक्स अब जेसी-277277एच),
06 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार जयराम प्रसाद गुप्ता (सं. 15116354एन अब जेसी-277278एल), 12 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार आचार्यजीत सिंह (सं. 14405174एन अब जेसी-277279एन), 16 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार मन बहादुर सिंह (सं. 15114190के अब जेसी-277280एच),
09 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार सुरेन्द्र कुमार (सं. 14413934ए अब जेसी-277281एल),
14 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार अर्जुन राय (सं. 14414111एम अब जेसी-277282एन),
24 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार जोगेन्द्र सिंह (सं. 15120534एन अब जेसी-277283डब्ल्यू),
03 अक्टूबर 2011/01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार शिवजी राम चौधरी (सं. 14398522वाई अब जेसी-277284वाई), 01 अक्टूबर 2011 *

हवलदार रविन्द्र पाल सिंह (सं. 15120441वाई अब जेसी-277285एफ), 01 नवम्बर 2011 *

हवलदार वर्गीस वी जे (सं. 15133879एन अब जेसी-277329एन),
09 अक्टूबर 2011/01 अप्रैल 2011 *

हवलदार पुष्पेन्द्र (सं. 15127842डब्ल्यू अब जेसी-277330एच),
16 सितम्बर 2011/01 जुलाई 2011 *

हवलदार सुरत सिंह (सं. 15110985ए अब जेसी-277331एल),
01 अगस्त 2011

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सूबेदार मेजर (क्लर्क एसडी/एसकेटी) के पद में

सूबेदार/क्लर्क (एसडी) राम शरण पाण्डेय (जेसी-265431के),
01 दिसम्बर 2011 *

सूबेदार/क्लर्क (एसडी) जय प्रकाशन नारायण (जेसी-265144ए),
28 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

सूबेदार/क्लर्क (एसडी) प्रताप सिंह बसेरा (जेसी-265112एक्स),
29 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

सूबेदार/क्लर्क (एसडी) अशोक कुमार (जेसी-265052एन),
09 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

सूबेदार (एसकेटी) अभय कुंवर सिंह (जेसी-263567पी), 21 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

सूबेदार (क्लर्क एसडी/एसकेटी) के पद में

नायब सूबेदार (एसकेटी) राम सरन डोत्रा (जेसी-273144पी), 01 अक्टूबर 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) श्रीकांत पाण्डेय (जेसी-273250एन), 01 अक्टूबर 2011

नायब सूबेदार (क्लर्क एसडी) सुनील कुमार मिश्रा (जेसी-272442वाई), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) संदीप कुमार बीर (जेसी-273747एल), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) शिव राज सिंह (जेसी-273567एच), 01 नवम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) झांवर सिंह (जेसी-272449एच), 23 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) ईश्वर जंग थापा (जेसी-272450एक्स), 23 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) अनादि नारायण दास (जेसी-272539के), 25 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) बी धिन्नारासु (जेसी-272540वाई), 24 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) रतन देव रोय (जेसी-272541एफ), 01 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) राम आशीष शर्मा (जेसी-272453एल), 23 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) गायकवाड सुदाम पंधारी नाथ (जेसी-272542के), 01 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) राज नारायण अवस्थी (जेसी-272454एन), 01 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) सत्या प्रकाश (जेसी-272543एम), 22 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) राकेश कुमार (जेसी-272544पी), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) बलदेव सिंह (जेसी-272927एफ), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) उन्नीकृष्णा पिल्ललाई वी (जेसी-272928के), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार (एसकेटी) मोहर चंद (जेसी-273748एन), 28 नवम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) एमडी जेहुरुद्दीन अहमद (जेसी-272882एम), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) नारायण सेठ (जेसी-272883पी), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) कमलेश कुमार बाजपई (जेसी-272885ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) रमेश कुमार सिंह (जेसी-273765एन), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) शाम सिंह (जेसी-272692ए), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) रविन्द्रा कुमार (जेसी-272886एच), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) भुवन चन्द्रा जोशी (जेसी-272929एम), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) केदार नाथ सिंह यादव (जेसी-272887एल), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) प्रवीर देब नाथ (जेसी-272693एच), 27 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) शिमागे संजय कुमार (जेसी-273137वाई), 01 दिसम्बर 2011

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) मालाय कुमार मजुमदार (जेसी-272888एन), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) सुजीत कुमार राय (जेसी-272889डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) विजय कुमार (जेसी-272893वाई), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) जय कृष्ण (जेसी-272894एफ), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) रमेश प्रसाद (जेसी-272895के), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) अरविंदकशन एन (जेसी-272897पी), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

नायब सूबेदार (एसकेटी) प्रेम सिंह (जेसी-273749डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार (एसकेटी) चनारा सिंह यादव (जेसी-273569एन), 05 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) जोशी सोमनाथ उधव (जेसी-273570एच), 16 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

नायब सूबेदार (एसकेटी) पिशाल हनमंत बाबू राव (जेसी-273571एल), 07 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

नायब सूबेदार (एसकेटी) खाराडे सम्पत (जेसी-273750एल), 01 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*

नायब सूबेदार (एसकेटी) सज्जन सिंह (जेसी-273751एन), 08 दिसम्बर 2011/01 दिसम्बर 2011*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) एन राजा रमन (जेसी-272933पी), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) एम चिल्लासामी (जेसी-272898एक्स), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) आर शशिधरन नायर (जेसी-272934एक्स), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) रेवा धर (जेसी-272694एल), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) मनी वाशगन आर (जेसी-272936एच), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) आशीष कुमार चक्रावर्ती (जेसी-272937एल), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) तरुन कुमार मजूमदेर (जेसी-272900के), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) मुनीश कुमार मिश्रा (जेसी-272901एम), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) राम बिहारी सिंह (जेसी-272938एन), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) बालेश्वर पीडी यादव (जेसी-272902पी), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार (एसकेटी) उमा शंकर राय (जेसी-273753वाई), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार (एसकेटी) सुरेश कुमार सिंह (जेसी-273572एन), 04 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

नायब सूबेदार (एसकेटी) वाबले राजाराम राम (जेसी-273754एफ), 02 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) प्रमोद कुमार द्विवेदी (जेसी-272909वाई), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) पृथ्वी सिंह (जेसी-272695एन), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) कना राम (जेसी-272939डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) सुसंता कुमार साहू (जेसी-272696डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) अजमेर सिंह (जेसी-272944एफ), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) इंद्र भान कुशवाहा (जेसी-272945के), 02 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) संजू बनखेडे (जेसी-272946एम), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसकेटी) एन सुब्रमनियन (जेसी-273573डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) कैलाश चन्द्रा गुजर (जेसी-272947पी), 01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) शिव दर्शन सिंह (जेसी-272948एक्स), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) शमशेर सिंह (जेसी-272949ए), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) सुभाष चन्द्रा मुनि (जेसी-272950पी), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) सुकुमार प्रधान (जेसी-274214पी), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) रमेश राम (जेसी-272960वाई), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) ओम प्रकाश (जेसी-272953एच), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) सुरेन्द्रा कुमार नाथ (जेसी-272954एल), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) प्रमोद कुमार बेहरा (जेसी-273035एच), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) श्री राम गांगवाड (जेसी-273036एल), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) के शिवाशंकर रेड्डी (जेसी-273248डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) जी. भास्करन (जेसी-273037एन), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) महेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-273139के), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) नरेश कुमार यादव (जेसी-273038डब्ल्यू), 03 मार्च 2012/01 मार्च 2012*

नायब सूबेदार/क्लर्क (एसडी) राम सिंह (जेसी-272930एफ),
14 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012*

*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार ब्रज नंदन (सं. 15399372डब्ल्यू अब जेसी-380947वाई),
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज प्रसाद (सं. 15393418एक्स अब जेसी-380957एच),
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार देविन्दर कुमार (सं. 15398245पी अब जेसी-380962एन),
20 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार संजय कुमार गिरि (सं. 15665169एम अब
जेसी-380965एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार दिनेश सिंह (सं. 15669659एक्स अब जेसी-380969एक्स),
01 जनवरी 2012

हवलदार खोत शशीकांत दत्तात्रेय (सं. 15396562एक्स अब
जेसी-380970एम), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार कांडरेप कुमार साहू (सं. 15668878एम अब
जेसी-380993एन), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार खुशाल कुमार (सं. 15667655एच अब
जेसी-380994डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार ईश्वरी दत्ता पाण्डेय (सं. 15669584एल अब
जेसी-380995वाई), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार पी जॉन कोन्नेडी (सं. 15390323एम अब जेसी-381007ए),
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार विश्वा पाल सिंह (सं. 15395506एल अब
जेसी-381009एल), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार व्यास अल्पेश रमेश चन्द्र (सं. 15388210एल अब
जेसी-381016एफ), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार अशिष्ट कुमार पाल (सं. 15392374वाई अब
जेसी-381017के), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार टिंगु लामा (सं. 15394409एच अब जेसी-381018एम),
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं. 15394640एल अब जेसी-381021एम),
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार चंदन चक्रवर्ती (सं. 15663866एन अब जेसी-381023एक्स),
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार धीरज सिंह (सं. 15397133एच अब जेसी-381025एच),
01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार विनय चन्द्रन पी वी (सं. 15384165एम अब
जेसी-381028डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार प्रवीण कुमार त्यागी (सं. 15399453डब्ल्यू अब जेसी-381030एन), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार शशांक शेखर डी (सं. 15663437एम अब जेसी-381031डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार भोसले विजय एच (सं. 15394906एम अब जेसी-381032वाई), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार पी के त्रिपाठी (सं. 15389691पी अब जेसी-381035एम), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार मनोज गुहा (सं. 15664322एल अब जेसी-381040एक्स), 05 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार प्रमोद कुमार द्विवेदी (सं. 15664281एम अब जेसी-381042एच), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार गिरीश कुमार सिंह (सं. 15665723एम अब जेसी-381043एल), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार श्यामल आचार्य (सं. 15392372एन अब जेसी-381051के), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार मृत्युंजय खामरू (सं. 15390213एक्स अब जेसी-381054एक्स), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार मुर्थ्य कंथ राव (सं. 15663221एल अब जेसी-381058एन), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार पाटील संदीप कुमार बी (सं. 15663828एक्स अब जेसी-381060एल), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार प्रकाश रंजन पात्रा (सं. 15398709एफ अब जेसी-381063वाई), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार के बिजु (सं. 15391988पी अब जेसी-381065के), 01 मार्च 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार आर के सिंह (सं. 15374546ए अब जेसी-381122ए), 01 फरवरी 2012

हवलदार सुदर्शन उपला (सं. 15373573एक्स अब जेसी-381124एल), 01 फरवरी 2012

हवलदार एस के मुरसिद हुसैन (सं. 15374213एन अब जेसी-381125एन), 01 फरवरी 2012

हवलदार वगीश जॉब (सं. 15370103एफ अब जेसी-381126डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार कुम्भार अन्नाजी विठ्ठल (सं. 15368227के अब जेसी-381181एम), 01 मार्च 2012

हवलदार जितेन्द्र नाथ सरकार (सं. 15372712के अब जेसी-381182पी), 01 मार्च 2012

हवलदार राज कुमार (सं. 15373373एफ अब जेसी-381183एक्स), 01 मार्च 2012

हवलदार हर प्रसाद सिंह (सं. 15373674एल अब जेसी-381184ए), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार (ओ एस एस) के रैंक में

हवलदार सुनिल दत्ता गर्ग (सं. 15363025एम अब जेसी-381073एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार कुलदीप (सं. 15363910एन अब जेसी-381084पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार करण सिंह (सं. 15363970एच अब जेसी-381127वाई), 01 फरवरी 2012

हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 15364600पी अब जेसी-381128एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार टेक चन्द (सं. 15363891एन अब जेसी-381129के), 01 फरवरी 2012

हवलदार त्रियुगी नारायण (सं. 15363972एन अब जेसी-381130वाई),
01 फरवरी 2012

हवलदार मनोज कुमार (सं. 15363876वाई अब जेसी-381131एफ),
04 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार जोगिन्दर सिंह यादव (सं. 15363887एल अब
जेसी-381132के), 01 फरवरी 2012

हवलदार एम के चौधरी (सं. 15364236एफ अब जेसी-381186एल),
01 मार्च 2012

हवलदार मनोज कुमार सिंह (सं. 15364259एच अब
जेसी-381187एन), 01 मार्च 2012

हवलदार जय प्रकाश मिश्रा (सं. 15364294एल अब
जेसी-381188डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

हवलदार सुभाष चन्द (सं. 15364279डब्ल्यू अब जेसी-381189वाई),
01 मार्च 2012

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 15364281एन अब जेसी-381190एन),
01 मार्च 2012

हवलदार दिनेश राय (सं. 15364301डब्ल्यू अब जेसी-381192वाई),
01 मार्च 2012

हवलदार डी के शुक्ला (सं. 15364331एन अब जेसी-381194के),
01 मार्च 2012

नायब सूबेदार (क्लर्क) (एसडी) के रैंक में

हवलदार एस के विश्वास (सं. 15371695एच अब
जेसी-381133एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार गुरुदेव सिंह (सं. 15371942एल अब जेसी-381134पी),
01 फरवरी 2012

हवलदार सुरेन्द्र पॉल (सं. 15371184वाई अब जेसी-381135एक्स),
01 फरवरी 2012

हवलदार चैतन्य प्रधान (सं. 15370014एच अब जेसी-381136ए),
01 फरवरी 2012

हवलदार खरार्दि अर्जुन सुरजि (सं. 15362882ए अब
जेसी-381137एच), 01 फरवरी 2012

हवलदार चन्दा पिल्लई पी डी (सं. 15367952एक्स अब
जेसी-381138एल), 01 फरवरी 2012

हवलदार मिटकर भगवान एम (सं. 15370031एच अब
जेसी-381139एन), 01 फरवरी 2012

हवलदार कुमुद रंजन मल्लिक (सं. 15371689पी अब
जेसी-381140एच), 01 फरवरी 2012

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 15367062एक्स अब जेसी-381141एल),
01 फरवरी 2012

हवलदार एस गयासुद्दीन मंडल (सं. 15369622एक्स अब
जेसी-381142एन), 01 फरवरी 2012

हवलदार राज कुमार (सं. 15369270एल अब जेसी-381196पी),
01 मार्च 2012

हवलदार दीपक कुमार अदक (सं. 15371592के अब
जेसी-381197एक्स), 01 मार्च 2012

हवलदार महाबलेश्वर (सं. 15372602पी अब जेसी-381200एम),
01 मार्च 2012

हवलदार संजय घोष (सं. 15372994एन अब जेसी-381201पी),
01 मार्च 2012

हवलदार एल वसंत नारायण (सं. 15373079एफ अब
जेसी-381202एक्स), 01 मार्च 2012

हवलदार मुरुगन एन (सं. 15374131एल अब जेसी-381203ए),
01 मार्च 2012

हवलदार के गोउथमन (सं. 15374134वाई अब जेसी-381204एच),
01 मार्च 2012

हवलदार उदय मोहन ठाकुर (सं. 15374064एल अब
जेसी-381205एल), 01 मार्च 2012

हवलदार हमीद खान (सं. 15374307एल अब जेसी-381206एन),
01 मार्च 2012

हवलदार हरि कुमार एम आर (सं. 15369251ए अब
जेसी-381207डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

हवलदार सुरेश गुप्ता (सं. 15373605पी अब जेसी-381208वाई),
01 मार्च 2012

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 15363111एक्स अब जेसी-380899के),
01 अक्टूबर 2011

हवलदार राजवीर मलिक (सं. 15362298एच अब
जेसी-381143डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार रूप चन्द घोष (सं. 15371691एम अब जेसी-381144वाई),
01 फरवरी 2012

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार अर्जुन सिंह (सं. 15368733एच अब जेसी-381097एम),
01 जनवरी 2012

हवलदार संग्राम सिंह (सं. 15360949पी अब जेसी-381098पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार एस सी गोकारी साहेब (सं. 15357682ए अब जेसी-381115के), 02 जनवरी 2012

हवलदार रमेशन कोरेम बेथ (सं. 15368406एक्स अब जेसी-381120पी), 07 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार शिओजी प्रसाद (सं. 15363544पी अब जेसी-381121एक्स), 02 जनवरी 2012

हवलदार राठौर अजीत सिंह अमर सिंह (सं. 15362274वाई अब जेसी-381145एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार संतोष कुमार वी के (सं. 15363082एन अब जेसी-381146के), 01 फरवरी 2012

हवलदार करतार सिंह (सं. 15363828वाई अब जेसी-381147एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार सुरेश (सं. 15365854वाई अब जेसी-381148पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार शिवा कुमार के (सं. 15366058एच अब जेसी-381149एक्स), 01 फरवरी 2012

हवलदार शिव बदन सिंह (सं. 15364068एच अब जेसी-381150एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार उत्पल मजूमदार (सं. 15360860एच अब जेसी-381151पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार टी सी जोशी (सं. 15363156एक्स अब जेसी-381152एक्स), 01 फरवरी 2012

हवलदार वबले पोपट डी देओ (सं. 15363498एल अब जेसी-381153ए), 01 फरवरी 2012

हवलदार रंजीत कुमार शाह (सं. 15367762एल अब जेसी-381154एच), 01 फरवरी 2012

हवलदार विजय कुमार सिंह (सं. 15363967एच अब जेसी-381155एल), 01 फरवरी 2012

हवलदार शेर सिंह (सं. 15368884एफ अब जेसी-381156एन), 01 फरवरी 2012

हवलदार मुल्ला जफर हुसैन (सं. 15369253एल अब जेसी-381157डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार शनावस के टी (सं. 15365951डब्ल्यू अब जेसी-381159एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार उपाध्याय विमलकान्त उमाशंकर (सं. 15363215वाई अब जेसी-381160डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार आर सी सिंह (सं. 15368642वाई अब जेसी-381161वाई), 01 फरवरी 2012

हवलदार अनिल कुमार राय (सं. 15362946ए अब जेसी-381162एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार दिलबाग पठानिया (सं. 15368891एक्स अब जेसी-381164एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार जग नारायण सिंह (सं. 15354991एक्स अब जेसी-381165पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार वी वेंकेटा सुब्बैअह (सं. 15366310डब्ल्यू अब जेसी-381166एक्स), 01 फरवरी 2012

हवलदार विक्रमा नन्द (सं. 15368274पी अब जेसी-381167ए), 01 फरवरी 2012

हवलदार रमेश कुमार (सं. 15367618डब्ल्यू अब जेसी-381170ए), 01 फरवरी 2012

हवलदार मनोज कुमार जोशी (सं. 15358438एम अब जेसी-381171एच), 01 फरवरी 2012

हवलदार एम के चौधरी (सं. 15363044एक्स अब जेसी-381172एल), 01 फरवरी 2012

हवलदार हिमाल थापा (सं. 15352636एफ अब जेसी-381174डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार एस सुन्दरा राजन (सं. 15353883एफ अब जेसी-381175वाई), 03 फरवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार मनगनु झा (सं. 15354032एफ अब जेसी-381176एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार भारद्वाज बृजेश हरि प्रसाद (सं. 15354624एल अब जेसी-381177के), 01 फरवरी 2012

हवलदार त्रिलोकी नाथ सिंह (सं. 15355074ए अब जेसी-381178एम), 01 फरवरी 2012

हवलदार योगेन्द्र कुमार (सं. 15355497एन अब जेसी-381179पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार काजी नासिर मियाँ अहमद मियन (सं. 15356611एम अब जेसी-381213के), 01 मार्च 2012

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 15362675एन अब जेसी-381214एम), 02 मार्च 2012

हवलदार जितेन्द्र कुमार (सं. 15361720एच अब जेसी-381215पी), 02 मार्च 2012

हवलदार जे एस परसराम (सं. 15368253वाई अब जेसी-381216एक्स), 02 मार्च 2012

हवलदार विनय डद्वल (सं. 15671280एम अब जेसी-381217ए), 02 मार्च 2012

हवलदार दीपक ठाकुर (सं. 15671281पी अब जेसी-381218एच),
02 मार्च 2012

हवलदार अवधेश कुमार (सं. 15356577एक्स अब जेसी-381221एच), 02 मार्च 2012

हवलदार राज किशोर सिंह (सं. 15353728ए अब जेसी-381222एल),
02 मार्च 2012

हवलदार अखिलेश कुमार सिंह (सं. 15355125एच अब जेसी-381223एन), 02 मार्च 2012

हवलदार हरफूल सिंह यादव (सं. 15356805पी अब जेसी-381225वाई), 02 मार्च 2012

हवलदार जतिन्द्र सिंह (सं. 15369085एक्स अब जेसी-381231एम),
02 मार्च 2012

हवलदार राजेश कुमार ठाकुर (सं. 15364871एम अब जेसी-381232पी), 02 मार्च 2012

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 15357066ए अब जेसी-381233एक्स),
02 मार्च 2012

हवलदार दया शंकर शुक्ला (सं. 15356744एच अब जेसी-381234ए), 02 मार्च 2012

हवलदार मनोरजन दास (सं. 15357093के अब जेसी-381235एच),
02 मार्च 2012

हवलदार शंभु नाथ मिश्रा (सं. 15358978एल अब जेसी-381245एम), 02 मार्च 2012

हवलदार सत्यावीर (सं. 15359011पी अब जेसी-381248ए),
02 मार्च 2012

हवलदार अशोक कुमार (सं. 15359145एन अब जेसी-381250एक्स),
02 मार्च 2012

हवलदार गंगा राज श्रेष्ठ (सं. 15357065एक्स अब जेसी-381251ए),
02 मार्च 2012

हवलदार नरेश सिंह (सं. 15358159एफ अब जेसी-381253एल),
02 मार्च 2012

हवलदार संजय कुमार (सं. 15359087पी अब जेसी-381256वाई),
02 मार्च 2012

हवलदार करमेन्द्र सिंह (सं. 15359144एल अब जेसी-381257एफ),
02 मार्च 2012

हवलदार अनिल कुमार तिवारी (सं. 15359194डब्ल्यू अब जेसी-381258के), 02 मार्च 2012

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार राम कृष्णा बिश्वास (सं. 15388278एम अब जेसी-380945एन), 01 जनवरी 2012

हवलदार यू लगानाथन (सं. 15384948एल अब जेसी-380946डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

हवलदार पी रवि (सं. 15388042एक्स अब जेसी-380949के),
01 जनवरी 2012

हवलदार परीक्षित घोष (सं. 15382906ए अब जेसी-380950वाई),
01 जनवरी 2012

हवलदार शिरसथ अशोक एम (सं. 15390872एम अब जेसी-380951एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार सितांगसु बेरा (सं. 15661601एल अब जेसी-380953एम),
01 जनवरी 2012

हवलदार राघवेन्द्र कुथादक (सं. 15667816ए अब जेसी-380954पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार कृष्णा कुमार (सं. 15664812वाई अब जेसी-380958एल),
01 जनवरी 2012

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 15666262ए अब जेसी-380959एन),
01 जनवरी 2012

हवलदार महामुनि संजय डी (सं. 15667692डब्ल्यू अब जेसी-380960एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार सनातन साहू (सं. 15382816वाई अब जेसी-380961एल),
01 जनवरी 2012

हवलदार पी वेंकटेशन (सं. 15388854एल अब जेसी-380963डब्ल्यू),
01 जनवरी 2012

हवलदार विजय कांत (सं. 15398112वाई अब जेसी-380964वाई),
01 जनवरी 2012

हवलदार एम डी अजिजुर रहमान बी (सं. 15667717एक्स अब जेसी-380966के), 01 जनवरी 2012

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 15667701एम अब जेसी-380967एम),
01 जनवरी 2012

हवलदार राजेश कुमार सिंह (सं. 15668995एक्स अब जेसी-380968पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार मनोज कुमार (सं. 15662236एफ अब जेसी-380971पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार संतोष कुमार सिंह (सं. 15664811डब्ल्यू अब जेसी-380972एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार रचमल मुक्तिराम डी (सं. 15390625वाई अब जेसी-380973ए), 01 जनवरी 2012

हवलदार दीपक सिंह भकुनि (सं. 15664776वाई अब जेसी-380974एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार राजदेओ (सं. 15667589एल अब जेसी-380975एल),
01 जनवरी 2012

हवलदार नागाराजु बी (सं. 15669779डब्ल्यू अब जेसी-380976एन),
01 जनवरी 2012

हवलदार हजारे ध्यानेश्वर काटुजी (सं. 15396510एफ अब
जेसी-380977डब्ल्यू), 01 जनवरी 2012

हवलदार रंजीत सिंह जोगी (सं. 15669364एफ अब
जेसी-380978वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार वैद्य श्रीधर एस (सं. 15667490पी अब जेसी-380978वाई),
01 जनवरी 2012

हवलदार प्रदीप कुमार प्रधान (सं. 15388224एल अब
जेसी-380981वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार आश्विन कुमार शर्मा (सं. 15668133वाई अब
जेसी-380983के), 01 जनवरी 2012

हवलदार अमित कुमार सिंह (सं. 15670143एफ अब
जेसी-380984एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार व्ही आरुमुगम (सं. 15393831एन अब जेसी-380985पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार अशोक कुमार (सं. 15665278वाई अब
जेसी-380986एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार रंधीर कुमार (सं. 15664970एन अब जेसी-380987ए),
01 जनवरी 2012

हवलदार बदि केददि रामबाबू (सं. 15669121डब्ल्यू अब
जेसी-380988एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार मिथिलेश ओझा (सं. 15669822एम अब
जेसी-380991एच), 01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार संजय सोलंकी (सं. 15662650पी अब जेसी-380997के),
01 जनवरी 2012

हवलदार कविन्द्रा कुमार शुक्ला (सं. 15663110एन अब
जेसी-380998एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार नरगिरेड्डी भुवन (सं. 15382505एल अब जेसी-380999पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार हिमालयेश (सं. 15663435एफ अब जेसी-381000डब्ल्यू),
01 जनवरी 2012

हवलदार कृष्ण कुमार सिंह (सं. 15662094पी अब
जेसी-381001वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार नवीन चन्द थापलियाल (सं. 15662842एक्स अब
जेसी-381002एफ), 01 जनवरी 2012

हवलदार शिन्दे दिलिप दिनकर (सं. 15663820एल अब
जेसी-381003के), 01 जनवरी 2012

हवलदार वी वेकटेश्वरा राव (सं. 15664064डब्ल्यू अब
जेसी-381004एम), 01 जनवरी 2012

हवलदार प्रदीप कुमार देहुरि (सं. 15394629एम अब
जेसी-381005पी), 01 जनवरी 2012

हवलदार कोतैह मर्यादा (सं. 15663704एच अब जेसी-381006एक्स),
01 जनवरी 2012

हवलदार जय शंकर तिवारी (सं. 15663963एल अब
जेसी-381011एच), 01 जनवरी 2012

हवलदार जाधव गजानन टी (सं. 15390993एन अब
जेसी-381012एल), 01 जनवरी 2012

हवलदार रनवीर कुमार (सं. 15393135डब्ल्यू अब जेसी-381013एन),
01 जनवरी 2012

हवलदार सुन्दारा राजन जे (सं. 15390384के अब जेसी-381022पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार करण सिंह (सं. 15391596एफ अब जेसी-381024ए),
01 जनवरी 2012

हवलदार एम हरिहरण (सं. 15667364एच अब जेसी-381037एक्स),
01 जनवरी 2012

हवलदार अजय कुमार (सं. 15393508वाई अब जेसी-381066एम),
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार (ओ पी साईफर) के रैंक में

हवलदार विनोद कुमार (सं. 15375474एन अब जेसी-380917एफ),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार ब्रज श्याम तिवारी (सं. 15356421ए अब
जेसी-380941एक्स), 02 दिसम्बर 2011

हवलदार भराथन एन आर (सं. 15364911एच अब
जेसी-380942ए), 02 दिसम्बर 2011

हवलदार जीवन सिंह रौतेला (सं. 15371744ए अब
जेसी-381068एक्स), 01 जनवरी 2012

हवलदार सरबजीत सिंह (सं. 15373955एफ अब जेसी-381069ए),
01 जनवरी 2012

हवलदार बसवराज एच (सं. 15375621एल अब जेसी-381070पी),
01 जनवरी 2012

हवलदार जैकब थॉमस (सं. 15375497पी अब जेसी-381071एक्स),
01 जनवरी 2012

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 15372435के अब जेसी-381072ए),
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार (ओ एस एस) के रैंक में

- हवलदार राज कुमार (सं. 15362846पी अब जेसी-380907एक्स),
01 नवम्बर 2011
- हवलदार जय प्रकाश सिंह (सं. 15362951एल अब जेसी-380909एच), 01 नवम्बर 2011
- हवलदार एन सी ढल (सं. 15360843एच अब जेसी-380910एक्स),
01 नवम्बर 2011
- हवलदार राजेश प्रताप सिंह (सं. 15364548एक्स अब जेसी-380918के), 01 दिसम्बर 2011
- हवलदार प्रवश चन्द्रा एस (सं. 15363457एफ अब जेसी-380919एम), 01 दिसम्बर 2011
- हवलदार मुन्ना ला झादे (सं. 15363171एम अब जेसी-380920एफ),
01 दिसम्बर 2011
- हवलदार दिनेश चन्द्रा (सं. 15363461के अब जेसी-380921के),
01 दिसम्बर 2011
- हवलदार दास सरवन कुमार ऐ के (सं. 15363483एच अब जेसी-380922एम), 01 दिसम्बर 2011
- हवलदार प्रशांता कुमार रॉय (सं. 15363526एम अब जेसी-381074एल), 01 जनवरी 2012
- हवलदार सुरेश चन्द्र (सं. 15363599वाई अब जेसी-381075एन),
01 जनवरी 2012
- हवलदार खजान सिंह (सं. 15363346के अब जेसी-381076डब्ल्यू),
01 जनवरी 2012
- हवलदार खिरुद हजारिका (सं. 15363620डब्ल्यू अब जेसी-381077वाई), 01 जनवरी 2012
- हवलदार पी मथि अलागन (सं. 15363656पी अब जेसी-381078एफ), 01 जनवरी 2012
- हवलदार हरि सिंह (सं. 15363383एक्स अब जेसी-381079के),
01 जनवरी 2012
- हवलदार अवधेश राम (सं. 15363641एम अब जेसी-381080वाई),
01 जनवरी 2012
- हवलदार श्याम नारायण पाण्डेय (सं. 15363717एफ अब जेसी-381081एफ), 01 जनवरी 2012
- हवलदार सुबस चन्द्र (सं. 15364174एम अब जेसी-381082के),
01 जनवरी 2012
- हवलदार भरत सिंह (सं. 15363832एम अब जेसी-381083एम),
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार [क्लर्क (एस डी)] के रैंक में

- हवलदार राजवीर सिंह (सं. 15369746एम अब जेसी-381090एच),
01 जनवरी 2012
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)
- हवलदार अशोक कुमार यादव (सं. 15370321ए अब जेसी-380913एल), 01 नवम्बर 2011
- हवलदार ज्ञानेश जोशी (सं. 15369727एफ अब जेसी-380924एक्स),
17 दिसम्बर 2011
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)
- हवलदार ओम दत्त सिंह एस (सं. 15369913एक्स अब जेसी-380925ए), 01 दिसम्बर 2011
- हवलदार माने सूर्याकांत नारायण (सं. 15370239एल अब जेसी-380926एच), 01 दिसम्बर 2011
- हवलदार कुलकर्णी मनोहर माधव (सं. 15370237ए अब जेसी-380927एल), 01 दिसम्बर 2011
- हवलदार दीपक दास (सं. 15359374वाई अब जेसी-380923पी),
01 दिसम्बर 2011
- हवलदार जीतेन्द्र प्रसाद (सं. 15370501एच अब जेसी-380928एन),
01 दिसम्बर 2011
- हवलदार विद्यानन्द झा (सं. 15370635एफ अब जेसी-380929डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2011
- हवलदार राकेश कुमार जरवाल (सं. 15370745एन अब जेसी-380930एल),
01 दिसम्बर 2011
- हवलदार लोकेन्द्र कुमार (सं. 15370711एच अब जेसी-381085एक्स), 01 जनवरी 2012
- हवलदार बिपिन गौड (सं. 15370714डब्ल्यू अब जेसी-381086ए),
01 जनवरी 2012
- हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 15370755ए अब जेसी-381087एच),
01 जनवरी 2012
- हवलदार प्रमोद कुमार मान (सं. 15370757एल अब जेसी-381088एल), 01 जनवरी 2012
- हवलदार बच्चनजी पाठक (सं. 15370784पी अब जेसी-381089एन),
01 जनवरी 2012
- हवलदार शरदा नारेन सिंह (सं. 15359357वाई अब जेसी-381099एक्स), 02 जनवरी 2012
- (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार लखमी चन्द (सं. 15368299एफ अब जेसी-381100एफ),
02 जनवरी 2012

हवलदार जलालुद्दीन अहमद (सं. 15357399एम अब जेसी-381101के), 02 जनवरी 2012

हवलदार कालु राम (सं. 15370756एच अब जेसी-381102एम),
02 जनवरी 2012

हवलदार रोशन लाल (सं. 15371508वाई अब जेसी-381103पी),
02 जनवरी 2012

हवलदार पाटील नामदेव यशवंत (सं. 15371309एल अब जेसी-381104एक्स), 02 जनवरी 2012

हवलदार ज्योतिमय नाथ (सं. 15371708पी अब जेसी-381105ए),
02 जनवरी 2012

हवलदार पी सी घोष (सं. 15371683एन अब जेसी-381106एच),
02 जनवरी 2012

हवलदार राधे श्याम बंधु (सं. 15371707एम अब जेसी-381107एल),
15 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार पी गुरुसामी (सं. 15362244एफ अब जेसी-381091एल),
01 जनवरी 2012

हवलदार सुर्यावीर सिंह (सं. 15364743पी अब जेसी-381108एन),
01 जनवरी 2012

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार द्वारका प्रसाद यादव (सं. 15356711एक्स अब जेसी-380938एक्स), 01 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जया प्रकाश सी सेठी (सं. 380205वाई अब जेसी-380205वाई), 04 सितम्बर 2010

हवलदार प्रेम आनंद जे (सं. 380206एफ अब जेसी-380206एफ),
04 सितम्बर 2010

हवलदार कुंहु मोहम्मद पी (सं. 380207के अब जेसी-380207के),
04 सितम्बर 2010

हवलदार किरुलकर हेमन्त मारुति (सं. 380208एम अब जेसी-380208एम), 04 सितम्बर 2010

हवलदार भान सिंह यादव (सं. 15368291पी अब जेसी-380939ए),
13 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2011 से दी जायेगी)

हवलदार शादिक बेग (सं. 15357190एफ अब जेसी-380940पी),
01 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2011 से दी जायेगी)

हवलदार मुरलीधरण के वी (सं. 15361293एक्स अब जेसी-380931एन), 01 दिसम्बर 2011

हवलदार राम सिंह (सं. 15358154एच अब जेसी-380932डब्ल्यू),
02 दिसम्बर 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2011 से दी जायेगी)

हवलदार वराडे गणेश पी (सं. 15362338वाई अब जेसी-380933वाई),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार राम निवास (सं. 15362418डब्ल्यू अब जेसी-380934एफ),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार अवतार सिंह (सं. 15363180एन अब जेसी-380935के),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार के महादेवन (सं. 15363653एफ अब जेसी-380936एम),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार शरीष कुमार (सं. 15363695एन अब जेसी-380937पी),
01 दिसम्बर 2011

हवलदार अजय कुमार (सं. 15363822एक्स अब जेसी-381092एन),
01 जनवरी 2012

हवलदार श्री डोमनिक (सं. 15362446एच अब जेसी-381093डब्ल्यू),
01 जनवरी 2012

हवलदार चल्के श्रीकांत सी के (सं. 15357495एफ अब जेसी-381094वाई), 01 जनवरी 2012

हवलदार राजेन्द्र कुमार (सं. 15365849एन अब जेसी-381095एफ),
01 जनवरी 2012

हवलदार मान सिंह (सं. 15367746एन अब जेसी-381096के),
01 जनवरी 2012

हवलदार अब्दुल लहिल हज्जुज (सं. 15363205पी अब जेसी-381109डब्ल्यू), 02 जनवरी 2012

हवलदार बुद्धावंत विष्णु. आर (सं. 15362833एक्स अब जेसी-381112डब्ल्यू), 02 जनवरी 2012

हवलदार एम वेंकट राव (सं. 15687828डब्ल्यू अब जेसी-381113वाई),
02 जनवरी 2012

हवलदार हेमेन मुसहारे (सं. 15357750एच अब जेसी-381116एम),
02 जनवरी 2012

हवलदार महेश सिंह करकि (सं. 15358486एम अब जेसी-381117पी),
07 जनवरी 2012

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 जनवरी 2012 से दी जायेगी)

हवलदार सुर्या नारेन मिश्रा (सं. 15369071एक्स अब जेसी-381118एक्स),
02 जनवरी 2012

हवलदार धरम बीर (सं. 15364365एफ अब जेसी-381119ए),
02 जनवरी 2012

टी सी शर्मा
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 338, दिनांक 31 जुलाई 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियाँ करते हैं:--

सूबेदार से सूबेदार मेजर डी डब्ल्यू के रैंक में

सूबेदार सुभाश कुमार (जेसी-750426एक्स), 12 जनवरी 2012/01
जनवरी 2012*

सूबेदार धनपाल आर (जेसी-760662वाई), 03 मार्च 2012/01 मार्च
2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में

सूबेदार शंकर पटेल (जेसी-757330के), 07 फरवरी 2012/01 जनवरी
2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर ए वी एन (ए ई) के रैंक में

सूबेदार जवहार लाल (जेसी-753769एल), 06 मार्च 2012/01 जनवरी
2012*

सूबेदार बी आंजनेयुलू (जेसी-756319वाई), 23 फरवरी 2012/01
फरवरी 2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

सूबेदार क्रिष्णा गोपाल (जेसी-756006ए), 13 फरवरी 2012/
01 फरवरी 2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर ड्राफ्टमैन टेक के रैंक में

सूबेदार देव नारायण साहू (जेसी-750889एम), 16 फरवरी 2012/
01 फरवरी 2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक कम्प्युनिकेशन के रैंक में

सूबेदार एस आर राम भीम राव (जेसी-755569एन), 16 फरवरी
2012/01 फरवरी 2012*

सूबेदार राधे लाल (जेसी-756017एम), 01 मार्च 2012

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

सूबेदार नेकी राम (जेसी-755972ए), 17 फरवरी 2012/01 फरवरी
2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

सूबेदार शीशपाल सिंह (जेसी-755460एन), 23 फरवरी 2012/01
फरवरी 2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर टेक कम्प्युनिकेशन के रैंक में

सूबेदार भगवान सिंह फर्तीयाल (जेसी-759705डब्ल्यू), 24 फरवरी
2012/01 फरवरी 2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक ए वी एन (ए एफ) के रैंक में

सूबेदार के सेखर (जेसी-756498के), 01 मार्च 2012

सूबेदार से सूबेदार मेजर आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

सूबेदार कैलाश नारयण उप्रेती (जेसी-752263ए), 05 मार्च 2012/
01 मार्च 2012*

नायब सूबेदार से सूबेदार आर टी पंडित के रैंक में

नायब सूबेदार संजय कुमार पाठक (जेसी-756293पी), 15 फरवरी
2012/01 फरवरी 2012*

नायब सूबेदार कुबेर नाथ पाठक (जेसी-755287पी), 22 फरवरी
2012/01 फरवरी 2012*

सूबेदार से सूबेदार मेजर मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में

सूबेदार हरी केशव (जेसी-755545के), 05 मार्च 2012/01 फरवरी
2012*

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन इलेक्ट के रैंक में

बिरेन्द्र कुमार स्वाइन (जेसी-762297एफ), 06 फरवरी 2012/
01 जनवरी 2012*

ब्रज मोहन नायक (जेसी-762868पी), 06 मार्च 2012/01 मार्च
2012*

सुरेश चन्द (जेसी-762556वाई), 01 मार्च 2012

जगनाथा पिल्लेय (जेसी-762105वाई), 01 मार्च 2012

दिलबाग सिंह (जेसी-762867एम), 01 मार्च 2012

तैरेश कुमार राव (जेसी-762106एफ), 01 मार्च 2012

प्रिन्स पी जोर्जे (जेसी-762866के), 01 मार्च 2012

नायब सूबेदार से सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में
 रामबीर देसवाल (जेसी-761829के), 01 फरवरी 2012
 श्याम बिहारी (जेसी-761928एम), 01 मार्च 2012
 मणी शंकर त्रिपाठी (जेसी-761927के), 01 मार्च 2012
 जगदीश कुमार (जेसी-761677के), 13 मार्च 2012/01 जनवरी 2012*
 अरुण सिंह तोमर (जेसी-762545एम), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 देश राज यादव (जेसी-762543ए), 04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 निमाई घोष (जेसी-763064एम), 01 अप्रैल 2012
 अमरजीत सिंह (जेसी-762544के), 01 अप्रैल 2012
 प्यार चन्द सिंह राणा (जेसी-762451पी), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 बलवन्त सिंह (जेसी-762445एफ), 01 अप्रैल 2012
 नेपाल सिंह (जेसी-762547एक्स), 01 अप्रैल 2012
 गुरुचरण सिंह (जेसी-762448पी), 01 अप्रैल 2012
 नायब सूबेदार से सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में
 तोता राम शर्मा (जेसी 762449एक्स), 01 अप्रैल 2012
 मदन लाल (जेसी-762541डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2012
 सुलीन्दर सिंह मवाली (जेसी-762546पी), 01 अप्रैल 2012
 ध्रुव सिंह पटनिया (जेसी-762453ए), 01 अप्रैल 2012
 मानोरंजन बिस्वास (जेसी-762680ए), 05 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 नायब सूबेदार से सूबेदार टेक एस ए के रैंक में
 महेन्द्र कुमार दुबे (जेसी-764545एल), 01 अप्रैल 2012
 त्रशपाल सिंह (जेसी-763842एफ), 17 फरवरी 2012/11 जनवरी 2012*
 बिशन दत्त पंडे (जेसी-763957ए), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 हेम चन्द्र (जेसी-764186एच), 05 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 राधे श्याम शर्मा (जेसी-764185ए), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 एम डी शमशेर अली (जेसी-765295एफ), 01 अप्रैल 2012
 नायब सूबेदार से सूबेदार (एस के टी) के रैंक में
 सत्य प्रकाश सिंह (जेसी-765172पी), 02 मार्च 2012/01 मार्च 2012*

इन्द्र सिंह कसाना (जेसी-765171एम), 01 मार्च 2012
 अलोक कुमार दास (जेसी-765174ए), 01 मार्च 2012
 नायब सूबेदार से सूबेदार टेक ए वी एन (आई और पी) के रैंक में
 अजीत सिंह सैन (जेसी-766035एक्स), 01 अप्रैल 2012
 हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में
 बिजया कुमार स्वाईन (सं. 14598961एन अब जेसी-766972एन), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 मोहमद सेराज खाना (सं. 14600113एक्स अब जेसी-766947एफ), 04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 देवेन्द्र नाथ मिश्रा (सं. 14601913एफ अब जेसी-766953पी), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 राजनंद त्रिपाठी (सं. 14600904एन अब जेसी-766946वाई), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 मोबीनुल ईस्लाम (सं. 14599478डब्ल्यू अब जेसी-766934के), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 धर्मपाल सिंह जाट (सं. 14599544एन अब जेसी-766936पी), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 राज बहादुर यादव (सं. 14600103एम अब जेसी-766944एन), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 धानेस्वर माझी (सं. 14599475एच अब जेसी-766933एफ), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 असीम कुमार साहा (सं. 14599802एम अब जेसी-766939एच), 04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 जोगब्राता दास (सं. 14598975एन अब जेसी-766767वाई), 10 मार्च 2012/01 मार्च 2012*
 शीव कुमार सिंह भदौरिया (सं. 14600679के अब जेसी-766945डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिक्वरी) के रैंक में
 सुरेश कुमार बी (सं. 14596411एम अब जेसी-766911एच), 01 अप्रैल 2012
 शिशपाल मौर्या (सं. 14595210एफ अब जेसी-766900डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 विक्रम सिंह (सं. 14596123ए अब जेसी-766909एल), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*
 हवलदार से नायब सूबेदार टेक एस ए के रैंक में
 राम रखन सिंह (सं. 14599332एच अब जेसी-766620एच), 26 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011*
 सी धर्मा लींगम (सं. 14606515के अब जेसी-766967पी), 05 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012*

सुरेश डी (सं. 14606335एफ अब जेसी-766958एन), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

उन्नी कृष्णन डी (सं. 14606225एम अब जेसी-766980वाई), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राम पाल (सं. 14598356ए अब जेसी-766887एक्स), 27 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

सव लबो (सं. 14650261एक्स अब जेसी-766884के), 02 अप्रैल 2012/04 फरवरी 2012 *

मेट्टा त्रिनाथलु (सं. 14600124एच अब जेसी-766883एफ), 02 मार्च 2012/01 मार्च 2012 *

थोमस जोसेफ (सं. 14644733एम अब जेसी-766876एल), 07 मार्च 2012/31 दिसम्बर 2011 *

खयदेम रतन सिंह (सं. 14663114एन अब जेसी-766877एन), 28 फरवरी 2012/31 दिसम्बर 2011 *

एस श्रीनीवासुलू (सं. 14592895ए अब जेसी-766880एन), 01 मार्च 2012

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

एस चन्द्रसेकरण (सं. 14614662एफ अब जेसी-766862एल), 01 अप्रैल 2012/04 फरवरी 2012 *

जोयंता बेरा (सं. 14614464डब्ल्यू अब जेसी-766861एच), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

अमीया कुमार पाल (सं. 14614460ए अब जेसी-766857ए), 07 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (एफ) के रैंक में

रवी कुमार पी (सं. 14637335एच अब जेसी-766691के), 28 मार्च 2012/22 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएन टेक (एफ) के रैंक में

मुरलीधरन पी (सं. 14610779एच अब जेसी-766853के), 16 मार्च 2012/01 मार्च 2012 *

दीलिप कुमार परीदा (सं. 14627637एन अब जेसी-766891ए), 06 फरवरी 2012/04 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएन टेक (ई) के रैंक में

बलबीर सिंह (सं. 14620291के अब जेसी-766855पी), 15 मार्च 2012/01 मार्च 2012 *

महेश महतो (सं. 14625936एफ अब जेसी-766890एक्स), 29 फरवरी 2012/04 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एसए के रैंक में

विजय सिंह (सं. 14605469एन अब जेसी-766658एम), 01 जनवरी 2012/01 दिसम्बर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (आई एवं पी) के रैंक में
पञ्जहानी कुमार ए (सं. 14630611एक्स अब जेसी-766695ए), 03 जनवरी 2012/29 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक आईएफ (आईएन) के रैंक में
सुब्रामनी के (सं. 14629113वाई अब जेसी-766694एक्स), 01 जनवरी 2012

रघुराज सिंह (सं. 14636154एल अब जेसी-766692एम), 06 दिसम्बर 2011/01 नवम्बर 2011 *

राजेश पवार (सं. 14628789पी अब जेसी-766693पी), 30 जनवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएफ (एवीएन) के रैंक में
गीरिश चन्द्रा (सं. 14622513एच अब जेसी-766696एच), 17 जनवरी 2012/22 अक्टूबर 2011 *

संजीव कुमार (सं. 14636631एफ अब जेसी-766699डब्ल्यू), 02 जनवरी 2012/22 अक्टूबर 2011 *

गणेश सिंह (सं. 14635311ए अब जेसी-766697एल), 12 दिसम्बर 2011/22 अक्टूबर 2011 *

जी लक्ष्मी नारायण रेड्डी (सं. 14636591एल अब जेसी-766698एन), 20 दिसम्बर 2011/22 अक्टूबर 2011 *

सथीश नायडु चिट्टी (सं. 14637063एन अब जेसी-766701एच), 20 दिसम्बर 2011/22 अक्टूबर 2011 *

अंजनेया कुमार दूडी (सं. 14637046डब्ल्यू अब जेसी-766700ए), 23 दिसम्बर 2011/22 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एवीएन (एफ) के रैंक में

इंद्र बहादुर पटेल (सं. 14609436ए अब जेसी-766852एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (एफ) के रैंक में

सतीश कुमार (सं. 14636294एक्स अब जेसी-766684एन), 03 जनवरी 2012/22 अक्टूबर 2011 *

शीवजी तिवारी (सं. 14635505एच अब जेसी-766689एम), 06 जनवरी 2012/22 अक्टूबर 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार आपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

योगेन्द्र साह (सं. 14594154एफ अब जेसी-766740एफ), 01 फरवरी 2012/01 जनवरी 2012 *

प्रदीप कुमार (सं. 14594481एम अब जेसी-766745ए), 01 मार्च 2012

धर्मपाल (सं. 14594282वाई अब जेसी-766743पी), 01 फरवरी 2012

हवलदार से नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

जय राजन पी (सं. 14614291के अब जेसी-766858एच), 08 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

माने अमतराव एस (सं. 14614418एफ अब जेसी-766860ए), 03 मार्च 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

रामेस्वर (सं. 14598678ए अब जेसी-766765एन), 01 मार्च 2012

रामेस्वर प्रसाद त्रिपाठी (सं. 14598689एम अब जेसी-766766डब्ल्यू), 01 मार्च 2012

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एसए के रैंक में

चिट्टा जयरामी रेड्डी (सं. 14599804एन अब जेसी-766888ए), 01 मार्च 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

मौहम्मद शाहजहान (सं. 14593653के अब जेसी-766878डब्ल्यू), 25 फरवरी 2012/31 दिसम्बर 2011 *

प्रताप सिंह जी (सं. 14605195एन अब जेसी-766879वाई), 01 मार्च 2012/31 दिसम्बर 2011 *

मनी राम (सं. 14594047ए अब जेसी-766881डब्ल्यू), 01 मार्च 2012/04 फरवरी 2012 *

महेन्द्र प्रसाद (सं. 14595467एम अब जेसी-766882वाई), 01 मार्च 2012/04 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

राम नंदन प्रसाद (सं. 14591704एन अब जेसी-766748एन), 01 फरवरी 2012

दीनेश कुमार पांडे (सं. 14591418एम अब जेसी-766771एफ), 01 फरवरी 2012

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक इंजीनियर इक्विपमेंट के रैंक में

सुवा लाल जाट (सं. 14624160एम अब जेसी-766845एल), 06 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में

शेवाडे तनाजी डी (सं. 14616079एल अब जेसी-766847डब्ल्यू), 01 फरवरी 2012

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो इलेक्ट्रिक बी व्हीकल के रैंक में

प्रमोद कुमार सिंह (सं. 14591707एफ अब जेसी-766854एम), 01 फरवरी 2012

रवीन्द्र यादव (सं. 14592958एक्स अब जेसी-766874ए), 15 फरवरी 2012/04 फरवरी 2012 *

अशोक कुमार शर्मा (सं. 14592210डब्ल्यू अब जेसी-766875एच), 15 फरवरी 2012/04 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटलर्जी के रैंक में

जुला राजेन्द्र सिंह (सं. 14617730पी अब जेसी-766856एक्स), 01 फरवरी 2012

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

जय चन्द्र झा (सं. 14551209एम अब जेसी-767017एम), 09 नवम्बर 2008

जय प्रकाश मिश्रा (सं. 14595806एफ अब जेसी-766915वाई), 01 अप्रैल 2012

संगम लाल पांडे (सं. 14595792एम अब जेसी-766913एन), 10 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

वीरेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 14595793पी अब जेसी-766914डब्ल्यू), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

नारायण सिंह (सं. 14595998के अब जेसी-766916एफ), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राकेश (सं. 14626635के अब जेसी-766926एल), 17 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

चंदन कुमार राय (सं. 14595884एल अब जेसी-766925एन), 01 अप्रैल 2012

राजदेव सिंह (सं. 14595465एफ अब जेसी-766912एल), 01 अप्रैल 2012

हवलदार से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में

अनील कुमार कुशवह (सं. 14618494एल अब जेसी-766848वाई), 27 फरवरी 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक ए व्हीकल के रैंक में

राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14609299एम अब जेसी-766851वाई), 19 मार्च 2012/01 मार्च 2012 *

ब्रह्म दत्ता (सं. 14611218ए अब जेसी-766924ए), 04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

अजीत मिश्रा (सं. 14611208डब्ल्यू अब जेसी-766923एक्स), 16 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

रघुवीर सिंह (सं. 14602988एल अब जेसी-766865वाई), 05 मार्च 2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (जीसीई) के रैंक में

सत्येन्द्र नाथ पांडे (सं. 14616541वाई अब जेसी-766870के),
02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

शेक जनी बासा (सं. 14616909डब्ल्यू अब जेसी-766919पी),
12 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इंजीनियर इक्विपमेंट के रैंक में

एस राज कुमार (सं. 14614130एफ अब जेसी-766885एम), 16 मार्च
2012/01 मार्च 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

अवधेश सिंह (सं. 14594792ए अब जेसी-766922पी), 10 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार आर्टिजन मेटॉलर्जी के रैंक में

शीशुपाल सिंह (सं. 14617292एक्स अब जेसी-766337पी), 03 जनवरी
2012/01 जनवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

घेजी रावसाहेब सोमप्पा (सं. 14604297एक्स अब जेसी-766918एम),
16 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

वंश सेतन सिंह लाल सिंह (सं. 14599817एल अब जेसी-766942एच),
03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

महा सिंह (सं. 14601386एल अब जेसी-766949एम), 04 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

रोहताश कुमार (सं. 14601843एन अब जेसी-766952एम), 07 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

महेश्वर सिंघा (सं. 14599527एन अब जेसी-766935एम), 01 अप्रैल
2012

सतेन्द्र सिंह (सं. 14601829एफ अब जेसी-766951के), 03 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

भुबीन चन्द्र पंत (सं. 14601828वाई अब जेसी-766950एफ), 02 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

वीरेन्द्र सिंह (सं. 14599560एल अब जेसी-766937एक्स), 03 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

परमानंद साह (सं. 14599472पी अब जेसी-766929वाई), 04 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

लक्ष्मी कांत पाल (सं. 14599598पी अब जेसी-766938ए), 03 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

रजनी कांत बौश्य (सं. 14598855पी अब जेसी-766932वाई),
04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

अमरजीत सिंह (सं. 14596891एफ अब जेसी-766930एन), 11 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

अब्दुल सतार शेख (सं. 14600266ए अब जेसी-766943एल),
04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

एस गणेशन (सं. 14600173एल अब जेसी-766941ए), 03 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

हरदीप कुमार (सं. 14601916पी अब जेसी-766954एक्स), 03 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

डी सेलवम (सं. 14599113एफ अब जेसी-766928डब्ल्यू), 01 अप्रैल
2012

प्रदीप कुमार सेन (सं. 14599736एल अब जेसी-766940एक्स),
05 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राइवर (रिकवरी) के रैंक में

श्याम लाल (सं. 14596358एम अब जेसी-766969ए), 10 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

सुरज भान प्रसाद (सं. 14597070वाई अब जेसी-766970पी),
11 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

चीता बरुआ (सं. 14595575डब्ल्यू अब जेसी-766906एक्स),
02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

सुरजीत सिंह शेखावत (सं. 14594935के अब जेसी-766898के),
01 अप्रैल 2012

रामजी चौधरी (सं. 14595201ए अब जेसी-766988एम), 02 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

राम प्रवेश राउत (सं. 14595116एक्स अब जेसी-766902एफ),
01 अप्रैल 2012

फूल कुमार (सं. 14595025एन अब जेसी-766904एम), 01 अप्रैल
2012

राम जनम प्रसाद (सं. 14595115पी अब जेसी-766901वाई),
01 अप्रैल 2012

राजेन्द्र कुमार साहू (सं. 14594750एन अब जेसी-766896वाई),
03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राम प्रकाश (सं. 14596107एच अब जेसी-766908एच), 02 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

सतेन्द्र कुमार महाराज (सं. 14596222एच अब जेसी-766910ए),
02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राजेन्द्र कुमार (सं. 14597804पी अब जेसी-766973एच), 10 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

एस अकीलन (सं. 14594765डब्ल्यू अब जेसी-766897एफ),
04 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

रामेश्वर सिंह (सं. 14598408एल अब जेसी-766976डब्ल्यू),
10 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

अशोक कुमार स्वैन (सं. 14597528एक्स अब जेसी-766972ए),
16 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

सरजीत सिंह (सं. 14595280ए अब जेसी-766905पी), 07 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

सुशील कुमार पांडे (सं. 14597222पी अब जेसी-766971एक्स),
16 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

डी वी श्रीनीवासा राव (सं. 14596137ए अब जेसी-767010एच),
16 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

दिनेश कुमार यादव (सं. 14595585ए अब जेसी-766907ए),
09 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एसए के रैंक में

रमेश प्रसाद (सं. 14606501के अब जेसी-766960एल), 07 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

रमेश चन्द्र (सं. 14606008डब्ल्यू अब जेसी-766957एल), 07 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

जयराम पाल (सं. 14605599डब्ल्यू अब जेसी-766956एच), 02 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

अनील कुमार सिंह (सं. 14606334वाई अब जेसी-766959डब्ल्यू),
06 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

सुर्या देव पाल (सं. 14606357ए अब जेसी-766963वाई), 07 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

दगले सक्कू त्रमबक (सं. 14606553ए अब जेसी-766961एन),
12 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राजेन्द्र कुमार तिवारी (सं. 14606356एक्स अब जेसी-766952डब्ल्यू),
13 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेटवर्किंग के रैंक में

जी लक्ष्मन पेरूमल (सं. 14622454एफ अब जेसी-766817वाई),
01 जनवरी 2012

कुलदीप कुमार चमेल (सं. 14623805एक्स अब जेसी-766886पी),
16 मार्च 2012/01 फरवरी 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक रडार के रैंक में

संतोश कुमार पात्रो (सं. 14626916ए अब जेसी-766981एफ),
17 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

दिबलोक दास (सं. 14627028एक्स अब जेसी-766982के), 19 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

देशाई संतोश क्रूशना (सं. 14628512डब्ल्यू अब जेसी-766985एक्स),
20 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

पाटील अनील तुकाराम (सं. 14628513वाई अब जेसी-766986ए),
24 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राजीव कुमार (सं. 14628527वाई अब जेसी-766987एच), 18 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

मतकर अडीक नेताजी (सं. 14630943एफ अब जेसी-766988एच),
21 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

बाला चन्द्रन ए के (सं. 14624697एल अब जेसी-766990एच),
19 अप्रैल 2012/05 फरवरी 2012 *

टक्के दिलीप राजाराम (सं. 14620097एल अब जेसी-765383एक्स),
20 अप्रैल 2012/01 अक्टूबर 2010 *

जुलीश के टी (सं. 14622339एफ अब जेसी-765790ए), 20 अप्रैल
2012/01 फरवरी 2011 *

सुभाष सिंह यादव (सं. 14625112एफ अब जेसी-766991एल),
20 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

प्रताप कुमार राउत (सं. 14625115एम अब जेसी-766992एन),
24 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

राकेश कुमार चौधरी (सं. 14625146एम अब जेसी-766995एफ),
21 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

अंधेनी ए (सं. 14624560वाई अब जेसी-766996के), 19 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

मनमोहन सराथे (सं. 14624864डब्ल्यू अब जेसी-766700वाई),
21 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

प्रनब कुमार प्रमानीक (सं. 14624973एच अब जेसी-767002के),
20 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

रमेश मटवा (सं. 14624949एम अब जेसी-767003एम), 21 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

हरेन्द्र सिंह (सं. 14625051एम अब जेसी-767005एक्स), 24 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

सथीश कुमार (सं. 14625237डब्ल्यू अब जेसी-767006ए), 18 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2012 *

अनील कुमार पी (सं. 14625271डब्ल्यू अब जेसी-767007एच),
20 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

तारकेश्वर नाथ मिश्रा (सं. 14620773पी अब जेसी-766023एन),
13 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

भगत सिंह (सं. 14611204एन अब जेसी-766025वाई), 11 अप्रैल
2012/01 अप्रैल 2011 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएन (ईई) के रैंक में
जी गोवर्धन (सं. 14628595एम अब जेसी-766499ए), 04 नवम्बर
2011/01 नवम्बर 2011 *

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में
प्रकाश चंद्र पंत (जेसी-760581के), 05 मई 2012/01 मई 2012 *
श्रवण राम जांगिर (जेसी-760451डब्ल्यू), 01 मई 2012
सिंह राम (जेसी-760516वाई), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *
भगवान सहाय जाट (जेसी-760320एल), 01 अप्रैल 2012
आर श्रीधरन (जेसी-760321एन), 01 मई 2012

नायब सूबेदार से सूबेदार टेक अष्टो इलेक्ट के रैंक में
जगत सिंह (जेसी-764874एफ), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *
उमेश सिंह (जेसी-762283एफ), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *
शशी कांत राम (जेसी-764408एम), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल
2012 *

माने आनंद अप्पासाहेब (जेसी-764658एन), 09 अप्रैल 2012/
01 अप्रैल 2012 *

अब्दुल जलील लासकर (जेसी-764698पी), 09 अप्रैल 2012/
01 अप्रैल 2012 *

नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में
बिजय बहादुर सिंह (जेसी-764923वाई), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल
2012 *

कैलाश चंद्र सेहरा (जेसी-765027एक्स), 12 अप्रैल 2012/01 अप्रैल
2012 *

नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो इलेक्ट ए व्हीकल के रैंक में
लाल मोहन सिंह (जेसी-765029एच), 12 अप्रैल 2012/01 अप्रैल
2012 *

नायब सूबेदार से सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में
हरनाम सिंह (जेसी-764022एम), 03 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक एस ए के रैंक में
मनोज कुमार (जेसी-760469एम), 01 अप्रैल 2012
तेज प्रताप सिंह (जेसी-760341एफ), 01 मार्च 2012
नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
सुखबीर सिंह (जेसी-760344पी), 02 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *
रनवीर सिंह (जेसी-760682एम), 01 अप्रैल 2012
पाटिल भगवान गणपति (जेसी-760345एक्स), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक इलेक्ट के रैंक में
बलवान सिंह (जेसी-760629एफ), 01 अप्रैल 2012
अजी कुमार के (जेसी-760350एच), 01 अप्रैल 2012
मुकूत बिहारी उपाध्याय (जेसी-760351एल), 02 अप्रैल 2012/
01 अप्रैल 2012 *

नायब सूबेदार से सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में
सुख चन्द साहू (जेसी-760603एम), 01 अप्रैल 2012
दूखीत राम पाल (जेसी-760257एफ), 14 मार्च 2012/01 मार्च
2012 *

ओ मनीकंदन (जेसी-760258के), 01 मार्च 2012
अरबींद पटनायक (जेसी-760260एफ), 26 मार्च 2012/01 मार्च
2012 *

नायब सूबेदार से सूबेदार ऑटो टेक इंजीनियर इक्यूपमेंट के रैंक में
जी पेरूमल (जेसी-764926एम), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *

नायब सूबेदार से सूबेदार टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
बीनू एम टी (जेसी-765051एन), 07 अप्रैल 2012/01 अप्रैल 2012 *
नायब सूबेदार से सूबेदार अर्माइन्ट टेक (एफवी/एडी) के रैंक में
पूरण चन्द्र मिश्रा (जेसी-764657एल), 01 अप्रैल 2012

नायब सूबेदार से सूबेदार टेक रडार के रैंक में
अशोक प्रताप सिंह (जेसी-764584के), 01 मार्च 2012
*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एस के तंवर
अवर सचिव

थल सेना शाखा

इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 339, दिनांक 31 जुलाई 2012--राष्ट्रपति महोदय, चरन सिंह को
दिनांक 27 जनवरी 2012 (पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर, रक्षा मंत्रालय में
सहायक अधिशासी अभियन्ता समूह 'क' के पद पर प्रोन्नत करते हैं। ये
दो वर्षों के लिए परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति महोदय, के उदय कुमार को दिनांक 24 जनवरी 2012
(पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक अधिशासी अभियन्ता
समूह 'क' के पद पर प्रोन्नत करते हैं। ये दो वर्षों के लिए परिवीक्षा
अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति महोदय, सत्यकाम श्रीवास्तव को दिनांक 18 अक्टूबर 2010
(पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक अधिशासी अभियन्ता
समूह 'क' के पद पर प्रोन्नत करते हैं। ये दो वर्षों के लिए परिवीक्षा
अवधि पर रहेंगे।

राष्ट्रपति महोदय, नरेन्द्र सिंह को दिनांक 03 अगस्त 2010 (पूर्वाह्न) से ई एम ई कोर, रक्षा मंत्रालय में सहायक अधिशासी अभियन्ता समूह 'क' के पद पर नियुक्त करते हैं। ये दो वर्षों के लिए परख अवधि पर रहेंगे।

एस के तंवर
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 340, दिनांक 01 अगस्त, 2012—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :—

भारतीय वायु सेना

उड़न शाखा

एयर कमोडोर (उड़न) के मूल रैंक में

एयर कमोडोर डी चौधरी, (17335), उ(पा), 01 अगस्त 2011 (काल्पनिक वरीयता 30 दिसम्बर 2010)

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में एयर कमोडोर वी राधाकृष्णन (17326), उ(पा) से नीचे और एयर कमोडोर एम के मसन्द (17341), उ(पा) से उपर प्रदर्शित होगा।

एयर कमोडोर एम के राव, (17343), उ(पा), 29 सितम्बर 2011 (काल्पनिक वरीयता 30 दिसम्बर 2010)

इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में एयर कमोडोर एम के मसन्द (17341), उ(पा) से नीचे और एयर कमोडोर जे चलपती (17358), उ(पा) से उपर प्रदर्शित होगा।

एयर कमोडोर एस गोसेवाडे, (16816), उ(पा), 13 जून 2011

एयर कमोडोर एस भटनागर, (17363), उ(पा), 28 सितम्बर 2011 (काल्पनिक वरीयता 09 जुलाई 2011)

एयर कमोडोर आर टण्डन, (17189), उ(एन), 09 जुलाई 2011

एयर कमोडोर एस एस राजन, (17848), उ(पा), 01 अगस्त 2011

एयर कमोडोर एस ए कुन्ते, (18073), उ(पा), 17 अगस्त 2011

एयर कमोडोर डी के अवस्थी, (18079), उ(पा), 01 सितम्बर 2011

एयर कमोडोर एस आर सिंह, (18083), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर कमोडोर टी के सिन्हा, (18084), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर कमोडोर एस कपूर, (18089), उ(पा), 28 दिसम्बर 2011

एयर कमोडोर पी के मोहे, (18099), उ(पा), 30 दिसम्बर 2011

एयर कमोडोर एम वी आर राव, (18115), उ(पा), 06 जनवरी 2012

एयर कमोडोर एस पी सिंह, (18116), उ(पा), 06 जनवरी 2012

एयर कमोडोर ए गुप्ता, (18121), उ(पा), 06 जनवरी 2012

एयर कमोडोर टी ए दयासागर, (18122), उ(पा), 06 जनवरी 2012

एयर कमोडोर आर गंडोत्रा, (16748), वैई(या), 02 अगस्त 2010

एयर कमोडोर जे सी गोयल, (16547), वैई(या), 07 जनवरी 2011

एयर कमोडोर पी के एच सिन्हा, (17118), वैई(वै), 01 अगस्त 2011

एयर कमोडोर आई बी एस सदाना, (17280), वैई(या), 01 अक्टूबर 2011

एयर कमोडोर ए जी क्षीरसागर, (17277), वैई(या), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर एम एस रेड्डी, (17297), वैई(वै), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर एस पुन्ताम्बेकर, (17286), वैई(या), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर एस गागुंली, (17288), वैई(वै), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर एस पेडेगोंवकर, (17279), वैई(या), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर पी के श्रीवास्तव, (17283), वैई(या), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर एस सक्सेना, (17278), वैई(या), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर एस चौधरी, (17645), वैई(या), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर पी मुखर्जी, (17671), वैई(वै), 01 नवम्बर 2011

एयर कमोडोर ए सिंह, (17622), वैई(या), 01 फरवरी 2012

एयर कमोडोर एस कुमार, (17637), वैई(वै), 01 फरवरी 2012

एयर कमोडोर वी सी वान्खेडे, (17676), वैई(वै), 01 फरवरी 2012

एयर कमोडोर आर के आर्या, (17635), वैई(वै), 01 फरवरी 2012

एयर कमोडोर एम एस जे पाइ, (17630), वैई(वै), 01 फरवरी 2012

एयर कमोडोर टी जी देसाई, (17665), वैई(वै), 01 फरवरी 2012

एयर कमोडोर के विजय कुमार, (17648), वैई(या), 01 फरवरी 2012

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी-2(बी)

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 341, दिनांक 01 अगस्त 2012—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी हुई तिथि (पूर्वाह्न) से दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड में पदोन्नति करते हैं :—

अनिता अग्रवाल, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2011

रनवीर सिंह, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2011

अल्का रैना, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

एस सी जोशी, एसएसपीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

प्रताप सिंह (अनुजजा), एसएसपीएल, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2011

अशोक कुमार (अनुजा), एसएसपीएल, तकनीकी सहायक-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2011

डी सी खाडे (अनुजजा), एचईएमआरएल, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2011

एम एम पी सिंह (अनुजा), आईएसएसए, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2011

राजीव गुप्ता, आईएसएसए, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2011

ए रामाकृष्णा राव, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2011

बी अप्पा राव, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2011

के धनंजय राव, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2011

एस बी सुजाता, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-डी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 7,600/-, 01 सितम्बर 2011

एम नूका राजू, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

डी शिवाशंकरैह (अनुजा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

के दुर्गा भवानी, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

के जगदीश्वरी, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

एन बालाजी (अनुजजा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

बी डी राजू, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-बी, तकनीकी अधिकारी-सी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 6,600/-, 01 सितम्बर 2011

केपी फनी कुमार, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2011

बी दुर्गा भवानी, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2011

वी वैकटेश्वर राव, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2011

सीएच एसआरए श्रीनिवासराव, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-ए, तकनीकी अधिकारी-बी, (रु. 15,600--39,100/-) + रु. 5,400/-, 01 सितम्बर 2011

के सेमूल (अनुजा), एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी-ए, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2011

एस नरसिन्हा सावन्त, एनएसटीएल, तकनीकी अधिकारी-सी, तकनीकी अधिकारी, (रु. 9,300--34,800/-) + रु. 4,800/-, 01 सितम्बर 2011

बी बी शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-टीसी)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 342, दिनांक 02 अगस्त, 2012--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नत करते हैं :--

एन मंगाना को वरिष्ठ भंडार अधिकारी-II, ग्रुप 'ए' (राजपत्रित) के रूप में दो वर्ष की परखावधि पर डीआरडीओ में 12 अप्रैल 2012 (पूर्वाह्न) से पे बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड पे रु. 5,400/- पर।

वी पी सिंह
उप निदेशक (कार्मिक एए-2)

सेना शाखा

सं. 343, दिनांक 02 अगस्त, 2012--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को कमीशन त्यागने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

त्यागपत्र

लै कर्नल प्रदीप कुमार (टीए-42237), इंजीनियर टीए, 21 अप्रैल 2011

लै कर्नल एस वी वागमारे (टीए-42236), इंजीनियर टीए, 15 सितम्बर 2010

मेजर ए के सिन्हा (टीए-42127), इंजीनियर टीए, 04 सितम्बर 2008

मेजर विपुल कुमार जैन (उटीए-42249), इंजीनियर टीए, 26 अगस्त 2011

कैप्टन जी एस भवरिया (टीए-42247), इंजीनियर टीए, 10 दिसम्बर 2008

वी राजाराम
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th August 2012

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERS

No. 332, dated 26th July 2012—The President is pleased to appoint Abhishek Kumar Singh, Assistant Executive Engineer Gp 'A' in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 26 Apr 2011. He will be on probation for a period of two years

The President is pleased to appoint Ramavatar Meena, Assistant Executive Engineer Gp 'A' in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 08 Aug 2011. He will be on probation for a period of two years

S K TANWAR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 333, dated 26th July 2012—The President is pleased to grant TA Commission to (TA-42308 Ex Lt Pankaj Khurana) Now TA-42792 Lt Pankaj Khurana wef 20 Dec 2010 with ante date seniority for the purpose of increment of pay and promotion under the provisions of Para 25(a) and 38(a) of TA Act 1948 (Revised Edition 1976), as indicated below:—

For the purpose of increment of pay on re-commissioned in TA, embodied service full in TA i.e. 02 years and 109 days and ¼th un-embodied service in TA i.e. 204 days (i.e. Total 02 years and 109 days + 204 days = 02 yrs and 313 days)

All previous service rendered in Territorial Army to count towards promotion (i.e. 04 yrs, 06 months and 24 days).

TERRITORIAL ARMY

To be Capt

TA-42792 Lt Pankaj Khurana Infantry (TA) as Lt wef 26 May 2006 and Capt wef 26 May 2010

V RAJARAM
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 334, dated 27th July 2012—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Subs Lt Col

Maj Rakesh Sharma (V-549N), RVC, 11 Dec 2011

Maj Mohammed Meheeb ur- Rahman (V-550H), RVC,
11 Dec 2011

Maj Vineet Butola (V-551L), RVC, 11 Dec 2011

Maj Neeraj Gupta (V-553Y), RVC, 11 Dec 2011

Maj Manav Deshwal (V-554Y), RVC, 11 Dec 2011

Maj Bhupender Bishnoi (V-555F), RVC, 11 Dec 2011

Maj Nitin Sheoran (V-563A), RVC, 11 Dec 2011

Maj Vikas Kumar Sinha (V-570W), RVC, 11 Dec 2011

T C SHARMA
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 335, dated 27th July 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (By Time Scale)

(IC-37946K) Lt Col JS Dhillon, Inf, 11 Nov 2008

(IC-43023P) Lt Col Gur Avtar Singh, Mech Inf, 08 Jun 2011

(IC-43081Y) Lt Col GS Bawa, Guards, 08 Jun 2011

(IC-43286N) Lt Col JS Saran, Inf, 14 Dec 2011

(IC-43373F) Lt Col MCR Babu, Inf, 14 Dec 2011

(IC-43425M) Lt Col KL Bishnoi, ASC, 14 Dec 2011

(IC-43448N) Lt Col IS Bains, ASC, 14 Dec 2011

(IC-43470Y) Lt Col BS Malia, Inf, 14 Dec 2011

(IC-43502W) Lt Col AJ Alexander, AOC, 14 Dec 2011

(IC-43518F) Lt Col Swaran Kumar, Inf, 14 Dec 2011

(IC-43583F) Lt Col Rahul Grover, AC, 14 Dec 2011

(IC-45141F) Lt Col DS Bisht, Arty, 10 Nov 2009

(IC-45386X) Lt Col Jagjeet Singh, EME, 24 Apr 2011

(IC-45450K) Lt Col JS Khokkar, EME, 07 Nov 2011

(IC-45464K) Lt Col SK Gupta, EME, 07 Nov 2011

(IC-45491N) Lt Col JS Lally, Arty, 07 Nov 2011

(IC-45519H) Lt Col CK Agarwal, Jag, 07 Nov 2011

(V-00401P) Lt Col SD Sharma, RVC, 10 Feb 2012

(V-00405L) Lt Col SC Gatt, RVC, 10 Feb 2012

(V-00406N) Lt Col Abhai Singh, RVC, 10 Feb 2012

(V-00421H) Lt Col Sk Agnihotri, RVC, 10 Feb 2012

(V-00426F) Lt Col Narender Singh, RVC, 10 Feb 2012

T K DAS
Dy Dir MS-8A

ARMY BRANCH

No. 336, dated 30th July 2012—The President is pleased to make the following promotions:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt SS Naggi (TA-42370), Eng (TA), 20 Mar 2006

Capt PJ Trivedi (TA-42378), Eng (TA), 03 Jul 2006

Capt Amarjit Sahu (TA-42562), Eng (TA), 06 Jan 2011

Capt SN Agrawal (TA-42580), Eng (TA), 01 May 2010

Capt Satish Kumar (TA-42587), Eng (TA), 08 Dec 2011

Capt R Vikram Satish (TA-42589), Eng (TA), 15 Dec 2011

Capt Mahesh Chand Goswami (TA-42595), Eng (TA), 04 Feb 2012

V RAJARAM
Under Secy

No. 337, dated 30th July 2012—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Manohar Singh (No. 14404021X now JC-277257P)
01 Nov 2011

Hav Dharamveer Singh (No. 14414460W now JC-277258X)
01 Nov 2011

Hav Devendra Nath Yadava (No. 15119070P now JC-277259A) 01 Nov 2011

Hav Rakesh Kumar (No. 15122431N now JC-277260P)
01 Nov 2011

Hav Girish R (No. 14408900H now JC-277261X) 22 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav Kashmir Singh (No. 14420505F now JC-277262A)
16 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav Dhurav Kumar (No. 14416472K now JC-277263H)
23 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav Amarjeet Singh (No. 14429312H now JC-277264L)
19 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav Vinod Kumar Yadav (No. 15141925M now JC-277265N) 15 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav Kumar Palagi (No. 14428767M now JC-277266W)
27 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav Md Azaz Akhtar (No. 15139956N now JC-277267Y)
15 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav Muruli Das K (No. 14417792L now JC-277268F)
26 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav S Suresh Kumar (No. 14426933W now JC-277269K)
13 Sep 2011/22 Aug 2011*

Hav C Shridhar (No. 15206114X now JC-277270Y) 21 Nov 2011/28 Jul 2011*

Hav Kondaiah Kalukuri (No. 14410096L now JC-277271F)
17 Oct 2011/01 Jul 2011*

Hav Surender Singh (No. 14403205K now JC-277272K)
12 Sep 2011/20 Aug 2011*

Hav Mahadevan Pillai M (No. 14403675P now JC-277273M) 21 Sep 2011/20 Aug 2011*

Hav Gyan Singh (No. 14408917W now JC-277274P)
18 Oct 2011/01 Sep 2011*

Hav Raghubir Singh (No. 15119259M now JC-277275X)
09 Oct 2011/01 Sep 2011*

Hav Diwakar Singh (No. 14409554K now JC-277276A)
02 Sep 2011/01 Sep 2011*

Hav Subhash Chand (No. 14402617X now JC-277277H)
06 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Jayram Prasad Gupta (No. 15116354N now JC-277278L) 12 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Achharjit Singh (No. 14405174N now JC-277279N)
16 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Man Bahadur Singh (No. 15114190K now JC-277280H) 09 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Surender Kumar (No. 14413934A now JC-277281L)
14 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Arjun Rai (No. 14414111M now JC-277282N) 24 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Jogendra Singh (No. 15120534N now JC-277283W)
03 Oct 2011/01 Oct 2011*

Hav Shivjit Ram Choudhary (No. 14398522Y now JC-277284Y) 01 Oct 2011

Hav Ravindra Pal Singh (No. 15120441Y now JC-277285F)
01 Nov 2011

Hav Varghese VJ (No. 15133879N now JC-277329N)
09 Oct 2011/01 Apr 2011*

Hav Pushpinder (No. 15127842W now JC-277330H)
16 Sep 2011/01 Jul 2011*

Hav Surat Singh (No. 15110985A now JC-277331L)
01 Aug 2011

To be Sub Maj (Clerk SD & SKsT)

Sub/Clk (SD) Ram Saran Pandey (JC-265431K) 01 Dec 2011

Sub/Clk (SD) Jay Prakashan Narayan (JC-265144A)
28 Nov 2011/01 Nov 2011*

Sub/Clk (SD) Pratap Singh Basera (JC-265112X) 29 Nov 2011/01 Nov 2011*

Sub/Clk (SD) Ashok Kumar (JC-265052N) 09 Jan 2012/01 Jan 2012*

Sub (SKT) Abhay Kunwar Singh (JC-263567P) 21 Feb 2012/01 Jan 2012*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay & allces)

To be Sub (Clerk SD & SKsT)

Nb Sub (SKT) Ram Saran Dottra (JC-273144P) 01 Oct 2011

Nb Sub (SKT) Shri Kant Pandey (JC-273250N) 01 Oct 2011

Nb Sub/Clk (SD) Sunil Kumar Mishra (JC-272442Y) 01 Nov 2011

Nb Sub (SKT) Sandeep Kumar Bir (JC-273747L) 01 Nov 2011

Nb Sub (SKT) Shiv Raj Singh (JC-273567H) 01 Nov 2011

Nb Sub/Clk (SD) Jhabar Singh (JC-272449H) 23 Nov 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Ishwar Jung Thapa (JC-272450X) 23 Nov 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Anandi Narayan Das (JC-272539K) 25 Nov 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) B Thennarasu (JC-272540Y) 24 Nov 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Ratan Deb Roy (JC-272541F) 01 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Ram Ashish Sharma (JC-272453L) 23 Nov 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Gaikwad Sudam Pandhari Nath (JC-272542K) 01 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Raj Narayan Awasty (JC-272454N) 01 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Satya Prakash (JC-272543M) 22 Nov 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Rakesh Kumar (JC-272544P) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Baldev Singh (JC-272927F) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Unnikrishna Pillai V (JC-272928K) 01 Dec 2011

Nb Sub (SKT) Mohar Chand (JC-273748N) 28 Nov 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) MD Jehiruddin Ahmed (JC-272882M) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Narayan Seth (JC-272883P) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Kamlesh Kumar Bajpai (JC-272885A) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Ramesh Kumar Singh (JC-273765N) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Sham Singh (JC-272692A) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Ravindra Kumar (JC-272886H) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Bhuwan Chandra Joshi (JC-272929M) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Kedar Nath Singh Yadav (JC-272887L) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Prabir Deb Nath (JC-272693H) 27 Dec 2011/01 Dec 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Shimage Sanjay Kumar (JC-273137Y) 01 Dec 2011

Nb Sub/Clk (SD) Malay Kumar Majumdar (JC-272888N) 01 Jan 2012

Nb Sub/Clk (SD) Sujit Kumar Roy (JC-272889W) 01 Jan 2012

Nb Sub/Clk (SD) Vijay Kumar (JC-272893Y) 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Jai Krishan (JC-272894F) 01 Jan 2012

Nb Sub/Clk (SD) Ramesh Prasad (JC-272895K) 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Aravindakshan N (JC-272897P) 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SKT) Prem Singh (JC-273749W) 01 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub (SKT) Channara Singh Yadav (JC-273569N) 05 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub/Clk (SD) Joshi Soma Nath Udhav (JC-273570H) 16 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub (SKT) Pisal Hanamant Babu Rao (JC-273571L) 07 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub (SKT) Kharade Sampat (JC-273750L) 01 Dec 2011/01 Nov 2011*

Nb Sub (SKT) Sajjan Singh (JC-273751N) 08 Dec 2011/01 Dec 2011*

Nb Sub/Clk (SD) N Raja Raman (JC-272933P) 01 Jan 2012

Nb Sub/Clk (SD) M Chellasamy (JC-272898X) 01 Jan 2012

Nb Sub/Clk (SD) R Sasidharan Nair (JC-272934X) 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Rewa Dhar (JC-272694L) 01 Jan 2012

Nb Sub/Clk (SD) Mani Vasagan R (JC-272936H), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Ashish Kumar Chakraborty (JC-272937L), 02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Tarun Kumar Majumdar (JC-272900K),
02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Munish Kumar Mishra (JC-272901M),
02 Jan 2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Ram Bihari Singh (JC-272938N), 01 Jan
2012

Nb Sub/Clk (SD) Baleshwar PD Yadav (JC-272902P),
01 Jan 2012

Nb Sub (SKT) Uma Shankar Roy (JC-273753Y), 01 Jan
2012

Nb Sub (SKT) Suresh Kumar Singh (JC-273572N), 04 Jan
2012/01 Jan 2012*

Nb Sub (SKT) Wabale Rajaram Ram (JC-273754F), 02 Jan
2012/01 Jan 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Pramod Kumar Dwivedi (JC-272909Y),
01 Feb 2012

Nb Sub/Clk (SD) Prithvi Singh (JC-272695N), 01 Feb 2012

Nb Sub/Clk (SD) Kana Ram (JC-272939W), 01 Feb 2012

Nb Sub/Clk (SD) Susanta Kumar Sahu (JC-272696W),
01 Feb 2012

Nb Sub/Clk (SD) Ajmer Singh (JC-272944F), 01 Feb 2012

Nb Sub/Clk (SD) Indra Bhan Kushwaha (JC-272945K),
02 Feb 2012/01 Feb 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Sanju Bankhede (JC-272946M), 01 Feb
2012

Nb Sub (SKT) N Subramanian (JC-273573W), 01 Feb 2012

Nb Sub/Clk (SD) Kailash Chandra Gujar (JC-272947P),
01 Feb 2012

Nb Sub/Clk (SD) Sheo Darshan Singh (JC-272948X),
01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Shamsher Singh (JC-272949A), 01 Mar
2012

Nb Sub/Clk (SD) Subas Chandra Muni (JC-272950P),
01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Sukumar Pradhan (JC-274214P), 01 Mar
2012

Nb Sub/Clk (SD) Ramesh Ram (JC-272960Y), 01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Om Prakash (JC-272953H), 01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Surendra Kumar Nath (JC-272954L),
01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Pramod Kumar Behera (JC-273035H),
01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Shri Ram Gangwar (JC-273036L), 01 Mar
2012

Nb Sub/Clk (SD) K Sivasankar Reddy (JC-273248W),
01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) G Baskaran (JC-273037N), 01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Mahendar Singh Chauhan (JC-273139K),
01 Mar 2012

Nb Sub/Clk (SD) Naresh Kumar Yadav (JC-273038W),
03 Mar 2012/01 Mar 2012*

Nb Sub/Clk (SD) Ram Singh (JC-272930F), 14 Feb 2012/
01 Dec 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on pay
& allces)

CORPS OF SIGNALS

To be Nb Sub (YOS)

Hav Brij Nandan (No. 15399372W now JC-380947Y),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Manoj Prasad (No. 15393418X now JC-380957H),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Devinder Kumar (No. 15398245P now JC-380962N),
20 Jan 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Sanjay Kumar Giri (No. 15665169M now JC-380965F),
01 Jan 2012

Hav Dinesh Singh (No. 15669659X now JC-380969X),
01 Jan 2012

Hav Khot Shashikant Dattatray (No. 15396562X now JC-
380970M), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Kandrap Kumar Sahoo (No. 15668878M now JC-
380993N), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Kushal Kumar (No. 15667655H now JC-380994W),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Eshwari Datta Pandey (No. 15669584L now JC-
380995Y), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (FOS)

Hav P John Konnelly (No. 15390323M now JC-381007A),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Vishwa Pal Singh (No. 15395506M now JC-381009L),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Vyas Alpesh Ramesh Chandra (No. 15388210L now
JC-381016F), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Asit Kumar Pal (No. 15392374Y now JC-381017K),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Tingu Lama (No. 15394409H now JC-381018M),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Joginder Singh (No. 15394640L now JC-381021M),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Chandan Chakrabarty (No. 15663866N now JC-
381023X), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Dhiraj Singh (No. 15397133H now JC-381025H),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Vinay Chandran PV (No. 15384165M now JC-
381028W), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Praveen Kumar Tyagi (No. 15399453W now JC-
381030N), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Sasanka Sekhar D (No. 15663437M now JC-381031W),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Bhosale Vijay H (No. 15394906M now JC-381032Y),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav P K Tripathi (No. 15389691P now JC-381035M),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Manoj Guha (No. 15664322L now JC-381040X), 05
Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Pramod Kumar Dwivedi (No. 15664281M now JC-
381042H), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Gireesh Kumar Singh (No. 15665723M now JC-
381043L), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Shyamal Acharya (No. 15392372N now JC-381051K),
01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Mrityunjoy Khamru (No. 15390213X now JC-
381054X), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan-2012
without effect on pay and allowances)

Hav Murthy Kantha Rao (No. 15663221L now JC-
381058N), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Patil Sandip Kumar B (No. 15663828X now JC-
381060L), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav Prakash Ranjan Patra (No. 15398709F now JC-
381063Y), 01 Mar 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

Hav K Biju (No. 15391988P now JC-381065K), 01 Mar
2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (OP CIPH)

Hav RK Singh (No. 15374546A now JC-381122A), 01 Feb
2012

Hav Sudarsan Upla (No. 15373573X now JC-381124L),
01 Feb 2012

Hav SK Mursid Hosen (No. 15374213N now JC-381125N),
01 Feb 2012

Hav Varghese Job (No. 15370103F now JC-381126W),
01 Feb 2012

Hav Kumbhar Annaji Vitthal (No. 15368227X now JC-
381181M), 01 Mar 2012

Hav Jitendra Nath Sarkar (No. 15372712K now JC-381182P), 01 Mar 2012

Hav Raj Kumar (No. 15373373F now JC-381183X), 01 Mar 2012

Hav Har Prasad Singh (No. 15373674L now JC-381184A), 01 Mar 2012

To be Nb Sub (OSS)

Hav Sunil Dutta Garg (No. 15363025M now JC-381073H), 01 Jan 2012

Hav Kuldeep (No. 15363910N now JC-381084P), 01 Jan 2012

Hav Karan Singh (No. 15363970H now JC-381127Y), 01 Feb 2012

Hav Ajay Kumar Singh (No. 15364600P now JC-381128F), 01 Feb 2012

Hav Tek Chand (No. 15363891N now JC-381129K), 01 Feb 2012

Hav Triyugi Narayan (No. 15363972N now JC-381130Y), 01 Feb 2012

Hav Manoj Kumar (No. 15363876Y now JC-381131F), 04 Feb 2012

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Joginder Singh Yadav (No. 15363887L now JC-381132K), 01 Feb 2012

Hav MK Choudhary (No. 15364236F now JC-381186L), 01 Mar 2012

Hav Manoj Kumar Singh (No. 15364259H now JC-381187N), 01 Mar 2012

Hav Jai Prakash Mishra (No. 15364294L now JC-381188W), 01 Mar 2012

Hav Subhash Chand (No. 15364279W now JC-381189Y), 01 Mar 2012

Hav Yeshpal Singh (No. 15364281N now JC-381190N), 01 Mar 2012

Hav Dinesh Rai (No. 15364301W now JC-381192Y), 01 Mar 2012

Hav DK Shukla (No. 15364331N now JC-381194K), 01 Mar 2012

To be Nb Sub/Clk (SD)

Hav SK Biswas (No. 15371695H now JC-381133M), 01 Feb 2012

Hav Gurdev Singh (No. 15371942L now JC-C-381134P), 01 Feb 2012

Hav Surendra Pal (No. 15371184Y now JC-381135X), 01 Feb 2012

Hav Chaitanya Pradhan (No. 15370014H now JC-381136A), 01 Feb 2012

Hav Kharadi Arjun Suraji (No. 15362882A now JC-381137H), 01 Feb 2012

Hav Chanda Pillai PD (No. 15367952X now JC-381138L), 01 Feb 2012

Hav Mitkar Bhagwan M (No. 15370031H now JC-381139N), 01 Feb 2012

Hav Kumud Ranjan Mallick (No. 15371689P now JC-381140H), 01 Feb 2012

Hav Birendra Singh (No. 15367062X now JC-381141L), 01 Feb 2012

Hav S Giasuddin Mandal (No. 15369622X now JC-381142N), 01 Feb 2012

Hav Raj Kumar (No. 15369270L now JC-381196P), 01 Mar 2012

Hav Dipak Kumar Adak (No. 15371592K now JC-381197X), 01 Mar 2012

Hav Mahabaleshwar (No. 15372602P now JC-381200M), 01 Mar 2012

Hav Sanjay Ghosh (No. 15372994N now JC-381201P), 01 Mar 2012

Hav L Vasant Narayan (No. 15373079F now JC-381202X), 01 Mar 2012

Hav Murugan N (No. 15374131L now JC-381203A), 01 Mar 2012

Hav K Gouthaman (No. 15374134Y now JC-381204H), 01 Mar 2012

Hav Uday Mohan Thakur (No. 15374064L now JC-381205L), 01 Mar 2012

Hav Hameed Khan (No. 15374307L now JC-381206N), 01 Mar 2012

Hav Hari Kumar MR (No. 15369251A now JC-381207W), 01 Mar 2012

Hav Suresh Gupta (No. 15373605P now JC-381208Y), 01 Mar 2012

To be Nb Sub (SKT)

Hav Jagdev Singh (No. 15363111X now JC-380899K), 01 Oct 2011

Hav Rajbir Malik (No. 15362298H now JC-381143W), 01 Feb 2012

Hav Rup Chand Ghosh (No. 15371691M now JC-381144Y), 01 Feb 2012

To be Nb Sub (GD)

Hav Arjun Singh (No. 15368733H now JC-381097M), 01 Jan 2012

Hav Sangram Singh (No. 15360949P now JC-381098P), 01 Jan 2012

Hav SC Gokari Saheb (No. 15357682A now JC-381115K), 02 Jan 2012

Hav Rameshan Korem Beth (No. 15368406X now JC-381120P), 07 Feb 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Sheoji Prasad (No. 15363544P now JC-381121X), 02 Jan 2012

Hav Rathaur Ajit Singh Amar Sinh (No. 15362274Y now JC-381145F), 01 Feb 2012

Hav Santhosh Kumar VK (No. 15363082N now JC-381146K), 01 Feb 2012

Hav Kartar Singh (No. 15363828Y now JC-381147M), 01 Feb 2012

Hav Suresh (No. 15365854Y now JC-381148P), 01 Feb 2012

Hav Siva Kumar K (No. 15366058H now JC-381149X), 01 Feb 2012

Hav Shiv Badan Singh (No. 15364068N now JC-381150M), 01 Feb 2012

Hav Utpal Majumdar (No. 15360860H now JC-381151P), 01 Feb 2012

Hav TC Joshi (No. 15363156X now JC-381152X), 01 Feb 2012

Hav Wabale Popat D Deo (No. 15363498L now JC-381153A), 01 Feb 2012

Hav Ranjeet Kumar Sah (No. 15367762L now JC-381154H), 01 Feb 2012

Hav Vijai Kumar Singh (No. 15363967H now JC-381155L), 01 Feb 2012

Hav Sher Singh (No. 15368884F now JC-381156N), 01 Feb 2012

Hav Mulla Jafar Hussain (No. 15369253L now JC-381157W), 01 Feb 2012

Hav Shanavas KT (No. 15365951W now JC-381159F), 01 Feb 2012

Hav Upadhya Vimalkant Umashanker (No. 15363215Y now JC-381160W), 01 Feb 2012

Hav RC Singh (No. 15368642Y now JC-381161Y), 01 Feb 2012

Hav Anil Kumar Rai (No. 15362946A now JC-381162F), 01 Feb 2012

Hav Dilbag Pathania (No. 15368891X now JC-381164M), 01 Feb 2012

Hav Jag Narayan Singh (No. 15354991X now JC-381165P), 01 Feb 2012

Hav V Venkata Subbaiah (No. 15366310W now JC-381166X), 01 Feb 2012

Hav Vikrama Nand (No. 15368274P now JC-381167A), 01 Feb 2012

Hav Ramesh Kumar (No. 15367618W now JC-381170A), 01 Feb 2012

Hav Manoj Kumar Joshi (No. 15358438M now JC-381171H), 01 Feb 2012

Hav MK Choudhary (No. 15363044X now JC-381172L), 01 Feb 2012

Hav Himal Thapa (No. 15352636F now JC-381174W), 01 Feb 2012

Hav S Soundara Rajan (No. 15353883F now JC-381175Y), 03 Feb 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Manganu Jha (No. 15354032F now JC-381176F), 01 Feb 2012

Hav Bharadwaj Brijesh Hari Prasad (No. 15354624L now JC-381177K), 01 Feb 2012

Hav Triloki Nath Singh (No. 15355074A now JC-381178M), 01 Feb 2012

Hav Yogander Kumar (No. 15355497N now JC-381179P), 01 Feb 2012

Hav Kaji Nasir Miya Ahmad Miyan (No. 15356611M now JC-381213K), 01 Mar 2012

Hav Rajendra Kumar (No. 15362675N now JC-381214M), 02 Mar 2012

Hav Jitendra Kumar (No. 15361720H now JC-381215P), 02 Mar 2012

Hav JS Parshram (No. 15368253Y now JC-381216X), 02 Mar 2012

Hav Vinay Dadwal (No. 15671280M now JC-381217A), 02 Mar 2012

Hav Deepak Thakur (No. 15671281P now JC-381218H), 02 Mar 2012

Hav Awadhesh Kumar (No. 15356577X now JC-381221H), 02 Mar 2012

Hav Raj Kishore Singh (No. 15353728A now JC-381222L), 02 Mar 2012

Hav Akhilesh Kumar Singh (No. 15355125H now JC-381223N), 02 Mar 2012

Hav Harphool Singh Yadav (No. 15356805P now JC-381225Y), 02 Mar 2012

Hav Jatinder Singh (No. 15369085X now JC-381231M), 02 Mar 2012

Hav Rajesh Kumar Thakur (No. 15364871M now JC-381232P), 02 Mar 2012

Hav Surender Singh (No. 15357066A now JC-381233X), 02 Mar 2012

Hav Daya Shankar Shukla (No. 15356744H now JC-381234A), 02 Mar 2012

Hav Manoranjan Das (No. 15357093K now JC-381235H), 02 Mar 2012

Hav Shambhu Nath Mishra (No. 15358978L now JC-381245M), 02 Mar 2012

Hav Satyavir (No. 15359011P now JC-381248A), 02 Mar 2012

Hav Ashok Kumar (No. 15359145N now JC-381250X), 02 Mar 2012

Hav Ganga Raj Shrestha (No. 15357065X now JC-381251A), 02 Mar 2012

Hav Naresh Singh (No. 15358159F now JC-381253L), 02 Mar 2012

Hav Sanjay Kumar (No. 15359087P now JC-381256Y), 02 Mar 2012

Hav Karmendra Singh (No. 15359144L now JC-381257F), 02 Mar 2012

Hav Anil Kumar Tiwari (No. 15359194W now JC-381258K), 02 Mar 2012

To be Nb Sub (YOS)

Hav Ram Krishna Biswas (No. 15388278M now JC-380945N), 01 Jan 2012

Hav U Laganathan (No. 15384948L now JC-380946W), 01 Jan 2012

Hav P Ravi (No. 15388042X now JC-380949K), 01 Jan 2012

Hav Parikshit Ghosh (No. 15382906A now JC-380950Y), 01 Jan 2012

Hav Shirsath Ashok M (No. 15390872M now JC-380951F), 01 Jan 2012

Hav Sitangsu Bera (No. 15661601L now JC-380953M), 01 Jan 2012

Hav Raghavendra Kuthadka (No. 15667816A now JC-380954P), 01 Jan 2012

Hav Krishna Kumar (No. 15664812Y now JC-380958L), 01 Jan 2012

Hav Rajendra Singh (No. 15666262A now JC-380959N), 01 Jan 2012

Hav Mahamuni Sanjay D (No. 15667692W now JC-380960H), 01 Jan 2012

Hav Sanatan Sahoo (No. 15382816Y now JC-380961L), 01 Jan 2012

Hav P Venkatesan (No. 15388854L now JC-380963W), 01 Jan 2012

Hav Vijay Kant (No. 15398112Y now JC-380964Y), 01 Jan 2012

Hav MD Azizur Rahaman B (No. 15667717X now JC-380966K), 01 Jan 2012

Hav Mahender Singh (No. 15667701M now JC-380967M), 01 Jan 2012

Hav Rajesh Kumar Singh (No. 15668995X now JC-380968P), 01 Jan 2012

Hav Manoj Kumar (No. 15662236F now JC-380971P), 01 Jan 2012

Hav Santosh Kumar Singh (No. 15664811W now JC-380972X), 01 Jan 2012

Hav Rachmale Muktiram D (No. 15390625Y now JC-380973A), 01 Jan 2012

Hav Deepak Singh Bhakuni (No. 15664776Y now JC-380974H), 01 Jan 2012

Hav Rajdeo (No. 15667589L now JC-380975L), 01 Jan 2012

Hav Nagaraju B (No. 15669779W now JC-380976N), 01 Jan 2012

Hav Hajare Dnyaneshwar Katuji (No. 15396510F now JC-380977W), 01 Jan 2012

Hav Ranjeet Singh Jogi (No. 15669364F now JC-380978Y), 01 Jan 2012

Hav Vaidya Shridhar S (No. 15667490P now JC-380979F), 01 Jan 2012

Hav Pradeep Kumar Pradhan (No. 15388224L now JC-380981Y), 01 Jan 2012

Hav Ashni Kumar Sharma (No. 15668133Y now JC-380983K), 01 Jan 2012

Hav Amit Kumar Singh (No. 15670143F now JC-380984M), 01 Jan 2012

Hav V Arumugam (No. 15393831N now JC-380985P), 01 Jan 2012

Hav Ashok Kumar (No. 15665278Y now JC-380986X), 01 Jan 2012

Hav Randhir Kumar (No. 15664970N now JC-380987A), 01 Jan 2012

Hav Badi Keddi Rambabu (No. 15669121W now JC-380988H), 01 Jan 2012

Hav Mithilesh Ojha (No. 15669822M now JC-380991H), 01 Jan 2012

To be Nb Sub (FOS)

Hav Sanjai Solanki (No. 15662550P now JC-380997K), 01 Jan 2012

Hav Kavindra Kumar Sukla (No. 15663110N now JC-380998M), 01 Jan 2012

Hav Nargireddi Bhuvan (No. 15382505L now JC-380999P), 01 Jan 2012

Hav Himalayesh (No. 15663435F now JC-381000W), 01 Jan 2012

Hav Krishan Kumar Singh (No. 15662094P now JC-381001Y), 01 Jan 2012

Hav Navin Chand Thapliyal (No. 15662842X now JC-381002F), 01 Jan 2012

Hav Shinde Dilip Dinkar (No. 15663820L now JC-381003K), 01 Jan 2012

Hav V Venkateswara Rao (No. 15664064W now JC-381004M), 01 Jan 2012

Hav Pradeep Kumar Dehuri (No. 15394629M now JC-381005P), 01 Jan 2012

Hav Kotaiah Mariyada (No. 15663704H now JC-381006X), 01 Jan 2012

Hav Jay Shankar Tiwari (No. 15663963L now JC-381011H), 01 Jan 2012

Hav Jadhav Gajanan T (No. 15390993N now JC-381012L), 01 Jan 2012

Hav Ranbir Kumar (No. 15393135W now JC-381013N), 01 Jan 2012

Hav Sundara Rajan J (No. 15390384K now JC-381022P), 01 Jan 2012

Hav Karan Singh (No. 15391596F now JC-381024A), 01 Jan 2012

Hav M Hariharan (No. 15667364H now JC-381037X), 01 Jan 2012

Hav Ajay Kumar (No. 15393508Y now JC-381066M), 01 Jan 2012

To be Nb Sub (OP CIPH)

Hav Vinod Kumar (No. 15375474N now JC-380917F), 01 Dec 2011

Hav Braj Shyam Tiwari (No. 15356421A now JC-380941X), 02 Dec 2011

Hav Bharathan NR (No. 15364911H now JC-380942A), 02 Dec 2011

Hav Jiwan Singh Rautela (No. 15371744A now JC-381068X), 01 Jan 2012

Hav Sarabjit Singh (No. 15373955F now JC-381069A), 01 Jan 2012

Hav Basavaraj H (No. 15375621L now JC-381070P), 01 Jan 2012

Hav Jacob Thomas (No. 15375497P now JC-381071X), 01 Jan 2012

Hav Raj Kumar Singh (No. 15372435K now JC-381072A), 01 Jan 2012

To be Nb Sub (OSS)

Hav Raj Kumar (No. 15362846P now JC-380907X), 01 Nov 2011

Hav Jay Prakash Singh (No. 15362951L now JC-380909H), 01 Nov 2011

Hav NC Dhal (No. 15360843H now JC-380910X), 01 Nov 2011

Hav Rajesh Pratap Singh (No. 15364548X now JC-380918K), 01 Dec 2011

Hav Pravash Chandra S (No. 15363457F now JC-380919M), 01 Dec 2011

Hav Munna Lal Jhade (No. 15363171M now JC-380920F), 01 Dec 2011

Hav Dinesh Chandra (No. 15363461K now JC-380921K), 01 Dec 2011

Hav Das Sarwan Kumar AK (No. 15363483H now JC-380922M), 01 Dec 2011

Hav Prasanta Kumar Roy (No. 15363526M now JC-381074L), 01 Jan 2012

Hav Suresh Chandra (No. 15363599Y now JC-381075N), 01 Jan 2012

Hav Khajan Singh (No. 15363346K now JC-381076W), 01 Jan 2012

Hav Khirud Hazarika (No. 15363620W now JC-381077Y), 01 Jan 2012

Hav P Mathi Alagan (No. 15363656P now JC-381078F), 01 Jan 2012

Hav Hari Singh (No. 15363383X now JC-381079K), 01 Jan 2012

Hav Awadesh Ram (No. 15363641M now JC-381080Y), 01 Jan 2012

Hav Shyam Narayan Pandey (No. 15363717F now JC-381081F), 01 Jan 2012

Hav Subas Chand (No. 15364174M now JC-381082K), 01 Jan 2012

Hav Bharat Singh (No. 15363832M now JC-381083M), 01 Jan 2012

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Rajvir Singh (No. 15369746M now JC-381090H), 01 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Yadav (No. 15370321A now JC-380913L), 01 Nov 2011

Hav Gyanesh Joshi (No. 15369727F now JC-380924X), 17 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Om Datt Singh S (No. 15369913X now JC-380925A), 01 Dec 2011

Hav Mane Suryakant Narayan (No. 15370239L now JC-380926H), 01 Dec 2011

Hav Kulkarni Manohar Madhav (No. 15370237A now JC-380927L), 01 Dec 2011

Hav Dipak Das (No. 15359374Y now JC-380923P), 01 Dec 2011

Hav Jitendra Prasad (No. 15370501H now JC-380928N), 01 Dec 2011

Hav Vidyanand Jha (No. 15370635F now JC-380929W),
01 Dec 2011

Hav Rakesh Kumar Jarwal (No. 15370145N now JC-380930L), 01 Dec 2011

Hav Lokander Kumar (No. 15370711H now JC-381085X),
01 Jan 2012

Hav Bipin Gond (No. 15370714W now JC-381086A),
01 Jan 2012

Hav Rajendra Kumar (No. 15370755A now JC-381087H),
01 Jan 2012

Hav Promod Kumar Maan (No. 15370757L now JC-381088L), 01 Jan 2012

Hav Bachanjee Pathak (No. 15370784P now JC-381089N),
01 Jan 2012

Hav Sharda Narain Singh (No. 15359357Y now JC-381099X), 02 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2011
without effect on pay and allowances)

Hav Lakhmi Chand (No. 15368299F now JC-381100F),
02 Jan 2012

Hav Jalaluddin Ahmed (No. 15357399M now JC-381101K),
02 Jan 2012

Hav Kalu Ram (No. 15370756H now JC-381102M),
02 Jan 2012

Hav Roshan Lal (No. 15371508Y now JC-381103P),
02 Jan 2012

Hav Patil Namdev Yashavant (No. 15371309L now JC-381104X), 02 Jan 2012

Hav Jyotirmoy Nath (No. 15371708P now JC-381105A),
02 Jan 2012

Hav PC Ghosh (No. 15371683N now JC-381106H), 02 Jan
2012

Hav Radha Shyam Bandhu (No. 15371707M now JC-381107L), 15 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2012
without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (SKT)

Hav P Gurusamy (No. 15362244F now JC-381091L),
01 Jan 2012

Hav Suryabeer Singh (No. 15364743P now JC-381108M),
01 Jan 2012

To be Nb Sub (GD)

Hav Dwarka Prasad Yadav (No. 15356711X now JC-380938X), 01 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Jaya Prakash C Shetty (No. 380205Y now JC-380205Y), 04 Sep 2010

Hav Prem Anand J (No. 380206F now JC-380206F),
04 Sep 2010

Hav Kunhu Muhammed P (No. 380207K now JC-380207K), 04 Sep 2010

Hav Kirulkar Hamant Maruti (No. 380208M now JC-380208M), 04 Sep 2010

Hav Bhan Singh Yadav (No. 15368291P now JC-380939A),
13 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2011
without effect on pay and allowances)

Hav Shadik Beg (No. 15357190F now JC-380940P),
01 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2011
without effect on pay and allowances)

Hav Muraleedharan KV (No. 15361293X now JC-380931N), 01 Dec 2011

Hav Ram Singh (No. 15358154H now JC-380932W),
02 Dec 2011

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2011
without effect on pay and allowances)

Hav Warade Ganesh P (No. 15362338Y now JC-380933Y),
01 Dec 2011

Hav Ram Niwas (No. 15362418W now JC-380934F),
01 Dec 2011

Hav Awtar Singh (No. 15363180N now JC-380935K),
01 Dec 2011

Hav K Mahadevan (No. 15363653F now JC-380936M),
01 Dec 2011

Hav Sharis Kumar (No. 15363695N now JC-380937P),
01 Dec 2011

Hav Ajay Kumar (No. 15363822X now JC-381092N),
01 Jan 2012

Hav Sri Domnic (No. 15362446H now JC-381093W),
01 Jan 2012

Hav Chalke Shrikant CK (No. 15357495F now JC-381094Y),
01 Jan 2012

Hav Rajinder Kumar (No. 15365849N now JC-381095F), 01
Jan 2012

Hav Man Singh (No. 15367746N now JC-381096K),
01 Jan 2012

Hav Abdul Lahil Hazzaz (No. 15363205P now JC-381109W),
02 Jan 2012

Hav Budhawant Vishnu R (No. 15362833X now JC-381112W), 02 Jan 2012

Hav M Venkat Rao (No. 15687828W now JC-381113Y),
02 Jan 2012

Hav Hemen Musahary (No. 15357750H now JC-381116M),
02 Jan 2012

Hav Mahesh Singh Karki (No. 15358486M now JC-381117P), 07 Jan 2012

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Jan 2012 without effect on pay and allowances)

Hav Surya Narain Mishra (No. 15369071X now JC-381118X), 02 Jan 2012

Hav Dharam Bir (No. 15364365F now JC-381119A), 02 Jan 2012

T C SHARMA
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 338, 31 Jul 2012—The President is pleased to make the following Appointments/Promotions :—

To be Sub Maj DW

Sub Subhash Kumar (JC-760426X), 12 Jan 2012/01 Jan 2012*

Sub Dhanapal R (JC-760662Y), 03 Mar 2012/01 Mar 2012*

To be Sub Maj SKT

Sub Shankar Patil (JC-757330K), 07 Feb 2012/01 Jan 2012*

To be Sub Maj Master Tech Avn AE

Sub Jawahar Lal (JC-753769L), 06 Mar 2012/01 Jan 2012*

Sub B Anjaneyulu (JC-756319Y), 23 Feb 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Maj Master Tech Networking

Sub Krishna Gopal (JC-756006A), 13 Feb 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Maj DTMN Tech

Sub Dev Narayan Sahu (JC-760889M), 16 Feb 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Maj Master Tech Comm

Sub S R Ram Bhim Rao (JC-755569N), 16 Feb 2012/01 Feb 2012*

Sub Radhey Lal (JC-756017M), 01 Mar 2012

To be Sub Maj Master Tech B Veh

Sub Neki Ram (JC-755972A), 17 Feb 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Maj Master Tech A Veh

Sub Shishpal Singh (JC-755460N), 23 Feb 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Maj Tech Comm

Sub Bhagwant Singh Phartiyal (JC-759705W), 24 Feb 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Maj Master Tech Avn AF

Sub K Sekar (JC-756498K), 01 Mar 2012

To be Sub Maj Opr & Dvr (Rec)

Sub Kailash Narayan Upraiti (JC-752263A), 05 Mar 2012/01 Mar 2012*

To be Sub (RT Pandit)

Nb Sub Sanjay Kumar Pathak (JC-756293P), 15 Feb 2012/01 Feb 2012*

Nb Sub Kuber Nath Pathak (JC-755287P), 22 Feb 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Maj Master Tech Elect

Sub Hari Keshav (JC-755545K), 05 Mar 2012/01 Feb 2012*

To be Sub Master Tech Avn Elect

Birendra Kumar Swain (JC-762297F), 06 Feb 2012/01 Jan 2012*

Braja Mohan Nayak (JC-762868P), 06 Mar 2012/01 Mar 2012*

Suresh Chand (JC-762556Y), 01 Mar 2012

Jaganatha Pillaia (JC-762105Y), 01 Mar 2012

Dilbag Singh (JC-762867M), 01 Mar 2012

Teresh Kumar Rao (JC-762106F), 01 Mar 2012

Prince P George (JC-762866K), 01 Mar 2012

To be Sub Clk (SD)

Rambir Deswal (JC-761829K), 01 Feb 2012

Shyam Bihari (JC-761928M), 01 Mar 2012

Mani Shankar Tripathi (JC-761927K), 01 Mar 2012

Jagdish Kumar (JC-761677K), 13 Mar 2012/01 Jan 2012*

Arun Singh Tomar (JC-762545M), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Desh Raj Yadav (JC-762543F), 04 Apr 2012/01 Apr 2012*

Nemai Ghosh (JC-763064M), 01 Apr 2012

Amarjit Singh (JC-762544K), 01 Apr 2012

Pair Chand Singh Rana (JC-762451P), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Balwant Singh (JC-762445F), 01 Apr 2012

Nepal Singh (JC-762547X), 01 Apr 2012

Gurcharan Singh (JC-762448P), 01 Apr 2012

Tota Ram Sharma (JC-762449X), 01 Apr 2012

Madan Lal (JC-762541W), 01 Apr 2012

Sulinder Singh Mowall (JC-762546P), 01 Apr 2012

Dhrub Singh Pathania (JC-762453A), 01 Apr 2012

Manoranjan Biswas (JC-762680A), 05 Apr 2012/01 Apr 2012*

To be Sub Tech SA

Mahendra Kumar Dubey (JC-764545L), 01 Apr 2012

Trashpal Singh (JC-763482F), 17 Feb 2012/11 Jan 2012*

Bishan Dutt Pandey (JC-763957A), 07 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hem Chandra (JC-764186H), 05 Apr 2012/01 Apr 2012*

Radhe Shyam Sharma (JC-764185A), 07 Apr 2012/01 Apr 2012*

MD Samsher Ali (JC-765295F), 01 Apr 2012

To be Sub Tech Skt

Satya Prakash Singh (JC-765172P), 02 Mar 2012/01 Mar 2012*

Indra Singh Kassana (JC-765171M), 01 Mar 2012

Alok Kumar Das (JC-765174A), 01 Mar 2012

To be Sub AV Tech I & P

Ajeet Singh Sain (JC-766035X), 01 Apr 2012

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Bijaya Kumar Swain (No. 14598961N now JC-766927N), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Mohd Seraj Khan (No. 14601013X now JC-766947F), 04 Apr 2012/01 Apr 2012*

Dewendra Nath Mishra (No. 14601913F now JC-766953P), 07 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rajnand Tripathi (No. 14600904N now JC-766946Y), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Mobinul Islam (No. 14599478W now JC-766934K), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Dharampal Singh Jat (No. 14599544N now JC-766936P), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Raj Bahadur Yadav (No. 14600103M now JC-766944N), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Dharneswar Majhi (No. 14599475H now JC-766933F), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Asim Kumar Saha (No. 14599802M now JC-766939H), 04 Apr 2012/01 Apr 2012*

Jogabrata Das (No. 14598975N now JC-766767Y), 10 Mar 2012/01 Mar 2012*

Shive Kumar Singh Bhadoria (No. 14600679K now JC-766945W), 04 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Suresh Kumar B (No. 14596411M now JC-766911H), 01 Apr 2012

Shishpal Maurya (No. 14595210F now JC-766900W), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Vikram Singh (No. 14596123A, now JC-766909L), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Ram Rakhan Singh (No. 14599332H now JC-766620H), 26 Dec 2011/01 Nov 2011*

C Dharma Lingam (No. 14606515K now JC-766967P), 05 Apr 2012/01 Apr 2012*

Suresh D (No. 14606335F now JC-766958N), 07 Apr 2012/01 Apr 2012*

Unni Krishnan D (No. 14606225M now JC-766980Y), 07 Apr 2012/01 Apr 2012*

Ram Pal (No. 14598356A now JC-766887X), 27 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Saw Labow (No. 14650261X now JC-766884K), 02 Apr 2012/04 Feb 2012*

Matta Trinadhulu (No. 14600124H now JC-766883F), 02 Mar 2012/01 Mar 2012*

Thomas Joseph (No. 14644733M now JC-766876L), 07 Mar 2012/31 Dec 2011*

Khaidem Ratan Singh (No. 14663114N now JC-766877N), 28 Feb 2012/31 Dec 2011*

S Sreenivasulu (No. 14592895A now JC-766880N), 01 Mar 2012

Hav to be Nb Sub (SKT)

S Chandra Sekaran (No. 14614662F now JC-766862L), 01 Apr 2012/04 Feb 2012*

Joyanta Bera (No. 14614464W now JC-766861H), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Amiya Kumar Pal (No. 14614460A now JC-766857A), 07 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Master Tech Avn (AF)

Ravi Kumar P (No. 14637335H now JC-766691K), 28 Mar 2012/22 Oct 2011

Hav to be Nb Sub Avn Tech AF

Muraleedharan P (No. 14610779H now JC-766853K), 16 Mar 2012/01 Mar 2012*

Dilip Kumar Parida (No. 14627637N now JC-766891A), 06 Feb 2012/04 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Avn Tech AE

Balbir Singh (No. 14620219K now JC-766855P), 15 Mar 2012/01 Mar 2012*

Mahesh Mahto (No. 14625936F now JC-766890X), 29 Feb 2012/04 Feb 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech SA

Vijay Singh (No. 14605469N now JC-766658M), 01 Jan 2012/01 Dec 2011*

HMT to be Nb Sub Master Avn (I & P)

Pazahani Kumar A (No. 14630611X now JC-766695A), 03 Jan 2012/29 Oct 2011*

HMT to be Nb Sub Master Avn Aen

Subramani K (No. 14629113Y now JC-766694X), 01 Jan 2012

Raghuraj Singh (No. 14636154L now JC-766692M), 06 Dec 2011/01 Nov 2011*

Rajesh Pawar (No. 14628789P now JC-766693P), 30 Jan 2012/01 Jan 2012*

HMT to be Nb Sub Master AVF Avn

Giresh Chandra (No. 14622513H now JC-766696H), 17 Jan 2012/22 Oct 2011*

Sanjiv Kumar (No. 14636631F now JC-766699W), 02 Jan 2012/22 Oct 2011*

Ganesh Singh (No. 14635311A now JC-766697L), 12 Dec 2011/22 Oct 2011*

G Laxmi Narayana Reddy (No. 14636591L now JC-766698N), 20 Dec 2011/22 Oct 2011*

Satheesh Nayudu Chitti (No. 14637063N now JC-766701H), 20 Dec 2011/22 Oct 2011*

Anjaneya Kumar Dudi (No. 14637046W now JC-766700A), 23 Dec 2011/22 Oct 2011*

HMT to be Nb Sub Avn Tech AF

Indra Bahadur Patel (No. 14609436A now JC-766852F), 01 Feb 2012

HMT to be Nb Sub Master Tech Avn AF

Satish Kumar (No. 14636294X now JC-766684N), 03 Jan 2012/22 Oct 2011*

Shivaji Tiwari (No. 14635505H now JC-766689M), 06 Jan 2012/22 Oct 2011*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Yogendra Sah (No. 14594154F now JC-766740F), 01 Feb 2012/01 Jan 2012*

Pradeep Kumar (No. 14594481M now JC-766745A), 01 Mar 2011

Dharma Pal (No. 14594282Y now JC-766743P), 01 Feb 2012

Hav to be Nb Sub SKT

Jaya Rajan P (No. 14614291K now JC-766858H), 08 Feb 2012/01 Feb 2012*

Mane Amrutrao S (No. 14614418F now JC-766860A), 03 Mar 2012/01 Mar 2011*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Rameswar (No. 14598678A now JC-766765N), 01 Mar 2012

Rameshwar Prasad Tripathi (No. 14598689M now JC-766766W), 01 Mar 2012

Hav to be Nb Sub Tech SA

Chitta Jayarami Reddy (No. 14599804N now JC-766888A), 01 Mar 2012/01 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Mohammad Shajahan (No. 14593653K now JC-766878W), 25 Feb 2012/31 Dec 2011*

Pratap Singh G (No. 14605195N now JC-766879Y), 01 Mar 2012/31 Dec 2011*

Mani Ram (No. 14594047A now JC-766881W), 01 Mar 2012/04 Feb 2012*

Mahendra Prasad (No. 14595467M now JC-766882Y), 01 Mar 2012/04 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Welder

Ram Nandan Prasad (No. 14591704N now JC-766748N), 01 Feb 2012

Dinesh Kumar Pandey (No. 14591418M now JC-766771F), 01 Feb 2012

Hav to be Nb Sub Auto Tech Engr Eqpt

Suwa Lal Jat (No. 14624160M now JC-766845L), 06 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Tech Rdr

Shevade Tanaji D (No. 14616079L now JC-766847W), 01 Feb 2012

Hav to be Nb Sub Auto Tech Elect B Veh

Pramod Kumar Singh (No. 14591707F now JC-766854M), 01 Feb 2012

Ravindra Yadava (No. 14592958X now JC-766874A), 15 Feb 2012/04 Feb 2012*

Ashok Kumar Sharma (No. 14592210W now JC-766875H), 15 Feb 2012/04 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Artsnmet

Zala Rajendra Singh (No. 14617730P now JC-766856X), 01 Feb 2012

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Jai Chandra Jha (No. 14551209M now JC-767017M), 09 Nov 2008

Jai Prakash Mishra (No. 14595806F now JC-766915Y), 01 Apr 2012

Sangam Lal Pandey (No. 14595792M now JC-766913N), 10 Apr 2012/01 Apr 2012*

Veerendra Pratap Singh (No. 14595793P now JC-766914W), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Narayan Singh (No. 14595998K now JC-766916F), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rakesh (No. 14626635K now JC-766926L), 17 Apr 2012/01 Apr 2012*

Chandan Kumar Roy (No. 14595884L now JC-766925H),
01 Apr 2012

Rajdeo Singh (No. 14595465F now JC-766912L), 01 Apr
2012

Hav to be Nb Sub Tech Rdr

Anil Kumar Kushwaha (No. 14618494L now JC-766848Y),
27 Feb 2012/01 Feb 2012*

Hav to be Nb Sub Auto Tech A Veh

Rajendra Prasad (No. 14609299M now JC-766851Y), 19 Mar
2012/01 Mar 2012*

Brahma Dutta (No. 14611218A now JC-766924A), 04 Apr
2012/01 Apr 2012*

Ajit Mishra (No. 14611208W now JC-766923X),
16 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Mach

Raghvir Singh (No. 14602988L now JC-766865Y), 05 Mar
2012/01 Mar 2012*

Hav to be Nb Sub Tech GCE

Satendra Nath Pandey (No. 14616541Y now JC-766870K),
02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Shaik Jani Basha (No. 14616909W now JC-766919P),
12 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Auto Tech Engr Eqpt

S Raja Kumar (No. 14614130F now JC-766885M), 16 Mar
2012/01 Mar 2012*

Hav to be Nb Sub Welder

Awadhesh Singh (No. 14594792A now JC-766922P), 10 Apr
2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Artsnmet

Shishupal Singh (No. 14617292X now JC-766337P), 03 Jan
2012/01 Jan 2012*

Hav to be Nb Sub Tech Comm

Gheji Ravasaheb Somappa (No. 14604297X now JC-
766918M), 16 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Vansh Setan Sinh Lal Sinh (No. 14599817L now JC-766942H),
03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Maha Singh (No. 14601386L now JC-766949M), 04 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Rohtash Kumar (No. 14601843N now JC-766952M), 07 Apr
2012/01 Apr 2012*

Maheswar Singha (No. 14599527N now JC-766935M),
01 Apr 2012

Satendra Singh (No. 14601829F now JC-766951K), 03 Apr
2012/01 Apr 2012*

Bhubin Chandra Pant (No. 14601828Y now JC-766950F),
02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Veerendra Singh (No. 14599560L now JC-766937X), 03 Apr
2012/01 Apr 2012*

Parmanand Sah (No. 14599472P now JC-766929Y), 04 Apr
2012/01 Apr 2012*

Lakshmi Kant Pal (No. 14599598P now JC-766938A),
03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rajani Kanta Baishya (No. 14598855P now JC-766932Y),
04 Apr 2012/01 Apr 2012*

Amarjit Singh (No. 14596891F now JC-766930N), 11 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Abdul Sattar Sheikh (No. 14600266A now JC-766943L),
04 Apr 2012/01 Apr 2012*

S Ganesan (No. 14600173L now JC-766941A), 03 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Hardeep Kumar (No. 14601916P now JC-766954X), 03 Apr
2012/01 Apr 2012*

D Selvam (No. 14599113F now JC-766928W), 01 Apr 2012

Pradip Kumar Sen (No. 14599736L now JC-766940X),
05 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Shyam Lal (No. 14596358M now JC-766969A), 10 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Suraj Bhan Prasad (No. 14597070Y now JC-766970P),
11 Apr 2012/01 Apr 2012*

Chita Baruah (No. 14595575W now JC-766906X),
02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Surjit Singh Shekhawat (No. 14594935K now JC-766898K),
01 Apr 2012

Ramajee Chadhary (No. 14595201A now JC-766988M),
02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Ram Prawesh Raut (No. 14595116X now JC-766902F),
01 Apr 2012

Phool Kanwar (No. 14595025N now JC-766904M), 01 Apr
2012

Ram Janam Prasad (No. 14595115P now JC-766901Y),
01 Apr 2012

Rajendra Kumar Sahu (No. 14594750N now JC-766896Y),
03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Ram Prakash (No. 14596107H now JC-766908H), 02 Apr
2012/01 Apr 2012*

Satendra Kumar Maharaj (No. 14596222H now JC-766910A),
02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rajendra Kumar (No. 14597804P now JC-766973H), 10 Apr
2012/01 Apr 2012*

S Akilan (No. 14594765W now JC-766897F),
04 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rameshwar Singh (No. 14598408L now JC-766976W),
10 Apr 2012/01 Apr 2012*

Ashok Kumar Swain (No. 14597528X now JC-766972A),
16 Apr 2012/01 Apr 2012*

Sarjeet Singh (No. 14595280A now JC-766905P), 07 Apr
2012/01 Apr 2012*

Sushil Kumar Pandey (No. 14597222P now JC-766971X),
16 Apr 2012/01 Apr 2012*

D V Sreenivasa Rao (No. 14596137A now JC-767010H),
16 Apr 2012/01 Apr 2012*

Dinesh Kumar Yadav (No. 14595585A now JC-766907A),
09 Apr 2012/01 Apr 2012*

Hav to be Nb Sub Tech SA

Ramesh Prasad (No. 14606501K now JC-766960L), 07 Apr
2012/01 Apr 2012*

Ramesh Chandra (No. 14606008W now JC-766957L), 07 Apr
2012/01 Apr 2012*

Jairam Pal (No. 14605599W now JC-766956H), 02 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Anil Kumar Singh (No. 14606334Y now JC-766959W),
06 Apr 2012/01 Apr 2012*

Surya Deo Pal (No. 14606357A now JC-766963Y), 07 Apr
2012/01 Apr 2012*

Dagale Sakru Trambak (No. 14606553A now JC-766961N),
12 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rajendra Kumar Tiwari (No. 14606356X now JC-766962W),
13 Apr 2012/01 Apr 2012*

*(Gtd ante dated seniority)

HMT to be Nb Sub Master Tech Networking

G Lakshmana Perumal (No. 14622454F now JC-766817Y),
01 Jan 2012

Kuldeep Kumar Chamel (No. 14623805X now JC-766886P),
16 Mar 2012/01 Feb 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech RDR

Santosh Kumar Patro (No. 14626916A now JC-766981F),
17 Apr 2012/01 Apr 2012*

Dibalok Das (No. 14627028X now JC-766982K), 19 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Desai Santosh Krushana (No. 14628512W now JC-
766985X), 20 Apr 2012/01 Apr 2012*

Patil Anil Tukaram (No. 14628513Y now JC-766986A),
24 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rajeev Kumar (No. 14628527Y now JC-766987H), 18 Apr
2012/01 Apr 2012*

Matkar Adik Netaji (No. 14630943F now JC-766988L),
21 Apr 2012/01 Apr 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech B Veh

Bala Chandran AK (No. 14624697L now JC-766990H),
19 Apr 2012/05 Feb 2012*

Takke Dilip Rajaram (No. 14620097L now JC-765383X),
20 Apr 2012/01 Oct 2010*

Juleesh KT (No. 14622339F now JC-765790A), 20 Apr 2012/
01 Feb 2011*

Subhash Singh Yadav (No. 14625112F now JC-766991L),
20 Apr 2012/01 Apr 2012*

Pratap Kumar Raut (No. 14625115M now JC-766992N),
24 Apr 2012/01 Apr 2012*

Rakesh Kumar Choudhary (No. 14625146M now JC-
766995F), 21 Apr 2012/01 Apr 2012*

Antony A (No. 14624560Y now JC-766996K), 19 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Manmohan Sarathe (No. 14624864W now JC-766700Y),
21 Apr 2012/01 Apr 2012*

Pranab Kumar Pramanik (No. 14624973H now JC-767002K),
20 Apr 2012/01 Apr 2012*

Ramesh Matwa (No. 14624949M now JC-767003M), 21 Apr
2012/01 Apr 2012*

Harendra Singh (No. 14625051M now JC-767005X), 24 Apr
2012/01 Apr 2012*

Satheesh Kumar S (No. 14625237W now JC-767006A),
18 Apr 2012/01 Apr 2012*

Anil Kumar P (No. 14625271W now JC-767007H),
20 Apr 2012/01 Apr 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech A Veh

Tarkeshwar Nath Mishra (No. 14620773P now JC-766023N),
13 Apr 2012/01 Feb 2011*

Bhagat Singh (No. 14611204N now JC-766025Y), 11 Apr
2012/01 Apr 2012*

HMT to be Nb Sub Master Tech AVN AE

G. Goverdhan (No. 14628595M now JC-766499A), 04 Nov
2011/01 Oct 2011*

*(Gtd ante dated seniority)

To be Sub Master Tech A Veh

Prakash Chandra Pant (JC-760518K), 05 May 2012/
01 May 2012*

Sharwan Ram Jangir (JC-760451W), 01 May 2012

Singh Ram (JC-760516Y), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Bhagwan Sahay Jat (JC-760320L), 01 Apr 2012*

R Shridharan (JC-760321N), 01 May 2012

To be Sub Tech Opto Elect

Jagat Singh (JC-764874F), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

Umed Singh (JC-762283F), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Shashi Kant Ram (JC-764408M), 02 Apr 2012/01 Apr
2012*

Mane Anand Appasaheb (JC-764658N), 09 Apr 2012/
01 Apr 2012*

Abdul Jalil Laskar (JC-764698P), 09 Apr 2012/
01 Apr 2012*

To be Sub Auto Tech B Veh

Bijay Bahadur Singh (JC-764923Y), 07 Apr 2012/01 Apr
2012*

Kailash Chand Sehara (JC-765027X), 12 Apr 2012/01 Apr
2012*

To be Sub Auto Elect A Veh

Lal Mohan Singh (JC-765029H), 12 Apr 2012/01 Apr 2012*

To be Sub Mach

Harnam Singh (JC-764022M), 03 Apr 2012/01 Apr 2012*

To be Sub Master Tech SA

Manoj Kumar (JC-760469M), 01 Apr 2012

Tej Pratap Singh (JC-760341F), 01 Mar 2012

To be Sub Master Tech Comm

Sukhbir Singh (JC-760344P), 02 Apr 2012/01 Apr 2012*

Ranvir Singh (JC-760682M), 01 Apr 2012

Patil Bhagwan Ganapati (JC-760345X), 01 Apr 2012

To be Sub Master Tech Elect

Balwan Singh (JC-760629F), 01 Apr 2012

Aji Kumar K (JC-760350H), 01 Apr 2012

Mukut Bihari Upadhyay (JC-760351L), 02 Apr 2012/
01 Apr 2012*

To be Sub Master Tech B Veh

Sukh Chand Sahu (JC-760603M), 01 Apr 2012

Dukhit Ram Pal (JC-760257F), 14 Mar 2012/01 Mar 2012*

O Manikandan (JC-760258K), 01 Mar 2012

Arabinda Pattanaik (JC-760260F), 26 Mar 2012/01 Mar
2012*

To be Sub Auto Tech Engr Eqpt

G Perumal (JC-764926M), 07 Apr 2012/01 Apr 2012*

To be Sub Tech Comm

Binu MT (JC-765051N), 07 Apr 2012/01 Apr 2012*

To be Sub Armt Tech Afv Ad

Puran Chandra Mishra (JC-764657L), 01 Apr 2012

To be Sub Tech Rdr

Ashok Pratap Singh (JC-764584K), 01 Mar 2012

*(Gtd ante dated seniority)

S K TANWAR
Under Secy

ARMY BRANCH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

No. 339, dated 31st July 2012—The President is pleased to promote Charan Singh, Foreman as Assistant Executive Engineer Gp 'A' in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 27 Jan 2012. He will be on probation for a period of two years

The President is pleased to promote K Uday Kumar, Foreman as Assistant Executive Engineer Gp 'A' in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 24 Jan 2012. He will be on probation for a period of two years

The President is pleased to promote Satyakam Srivastava, Foreman as Assistant Executive Engineer Gp 'A' in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 18 Oct 2010. He will be on probation for a period of two years

The President is pleased to promote Narendra Singh, Foreman as Assistant Executive Engineer Gp 'A' in the Corps of EME under Ministry of Defence with effect from 03 Aug 2010. He will be on probation for a period of two years

S K TANWAR
Under Secy

AIR BRANCH

No. 340, dated 1st August 2012—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Subs Air Cmde

Air Cmde D Choudhury (17335), F(P), 01 Aug 2011 (NS-30 Dec 2010)

(His name will appear below Air Cmde B Radhakrishna (17326) F(P) and above Air Cmde MK Masand (17341) F(P) in the combined gradation list)

Air Cmde MK Rao (17343), F(P), 29 Sep 2011 (NS-30 Dec 2010)

(His name will appear below Air Cmde MK Masand (17341) F(P) and above Air Cmde J Chalapati (17358) F(P) in the combined gradation list)

Air Cmde S Gosewade (16816), F(P), 13 Jun 2011

Air Cmde S Bhatnagar (17363), F(P), 28 Sep 2011 (NS-09 Jul 2011)

Air Cmde R Tandon (17189), F(N), 09 Jul 2011

Air Cmde SS Rajan (17848), F(P), 01 Aug 2011

Air Cmde SA Kunte (18073), F(P), 17 Aug 2011

Air Cmde DK Awasthi (18079), F(P), 01 Sep 2011

Air Cmde SR Singh (18083), F(P), 28 Dec 2011
 Air Cmde TK Sinha (18084), F(P), 28 Dec 2011
 Air Cmde S Kapoor (18089), F(P), 28 Dec 2011
 Air Cmde PK Mohey (18099), F(P), 30 Dec 2011
 Air Cmde MVR Rao (18115), F(P), 06 Jan 2012
 Air Cmde SP Singh (18116), F(P), 06 Jan 2012
 Air Cmde A Gupta (18121), F(P), 06 Jan 2012
 Air Cmde TA Dayasagar (18122), F(P), 06 Jan 2012
 Air Cmde R Gandotra (16748), AE(M), 02 Aug 2010
 Air Cmde JC Goyal (16547), AE(M), 07 Jan 2011
 Air Cmde PKH Sinha (17118), AE(L), 01 Aug 2011
 Air Cmde IBS Sadana (17280), AE(M), 01 Oct 2011
 Air Cmde AG Kshirsagar (17277), AE(M), 01 Nov 2011
 Air Cmde MS Reddy (17297), AE(L), 01 Nov 2011
 Air Cmde S Puntambekar (17286), AE(M), 01 Nov 2011
 Air Cmde S Ganguly (17288), AE(L), 01 Nov 2011
 Air Cmde S Padegaonkar (17279), AE(M), 01 Nov 2011
 Air Cmde PK Shrivastava (17283), AE(M), 01 Nov 2011
 Air Cmde S Saxena (17278), AE(M), 01 Nov 2011
 Air Cmde S Choudhary (17645), AE(M), 01 Nov 2011
 Air Cmde P Mukherjee (17671), AE(L), 01 Nov 2011
 Air Cmde A Singh (17622), AE(M), 01 Feb 2012
 Air Cmde S Kumar (17637), AE(L), 01 Feb 2012
 Air Cmde VC Wankhade (17676), AE(L), 01 Feb 2012
 Air Cmde RK Arya (17635), AE(L), 01 Feb 2012
 Air Cmde MSJ Pai (17630), AE(L), 01 Feb 2012
 Air Cmde TG Desai (17665), AE(L), 01 Feb 2012
 Air Cmde K Vijay Kumar (17648), AE(M), 01 Feb 2012

AK SINGH

Dy Dir Pers (Officer)-2B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 341, dated 1st August 2012—The President is pleased to promote the following officers from existing grade wef the date (F/N) as mentioned against each :—

Name, Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to, Pay Band + Grade Pay of Promoted Grade (in Rs.) & Date of Charge Assumption in the Promoted Grade

Anita Aggarwal, SSPL, TO-C, TO-D, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 7,600/-, 01 Sep 2011

Ranvir Singh, SSPL, TO-C, TO-D, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 7,600/-, 01 Sep 2011

Alka Raina, SSPL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

SC Joshi, SSPL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

Pratap Singh (ST), SSPL, STA-C, TO-A, PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + GP Rs. 4,800/-, 01 Sep 2011

Ashok Kumar (SC), SSPL, TA-C, TO, PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + GP Rs. 4,800/-, 01 Sep 2011

DC Khade (ST), HEMRL, STA-C, TO-A, PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + GP Rs. 4,800/-, 01 Sep 2011

MMP Singh (SC), ISSA, TO-C, TO-D, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 7,600/-, 01 Sep 2011

Rajeev Gupta, ISSA, TO-A, TO-B, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 5,400/-, 01 Sep 2011

A Ramakrishna Rao, NSTL, TO-C, TO-D, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 7,600/-, 01 Sep 2011

B Appa Rao, NSTL, TO-C, TO-D, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 7,600/-, 01 Sep 2011

K Dhanunjaya Rao, NSTL, TO-C, TO-D, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 7,600/-, 01 Sep 2011

SB Sujata, NSTL, TO-C, TO-D, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 7,600/-, 01 Sep 2011

M Nooka Raju, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

D Sivasankaraiah (SC), NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

K Durga Bhawani, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

K Jagadeeswari, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

N Balaji (ST), NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

BD Raju, NSTL, TO-B, TO-C, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 6,600/-, 01 Sep 2011

KP Phani Kumar, NSTL, TO-A, TO-B, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 5,400/-, 01 Sep 2011

B Durga Bhavani, NSTL, TO-A, TO-B, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 5,400/-, 01 Sep 2011

V Venkateswara Rao, NSTL, TO-A, TO-B, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 5,400/-, 01 Sep 2011

Ch SRA Srinivasa Rao, NSTL, TO-A, TO-B, PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + GP Rs. 5,400/-, 01 Sep 2011

K Samuel (SC), NSTL, STA-C, TO-A, PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + GP Rs. 4,800/-, 01 Sep 2011

S Narasinha Sawant), NSTL, TA-C, TO, PB-2
(Rs. 9,300—34,800/-) + GP Rs. 4,800/-, 01 Sep 2011

BB SHARMA
Jt Dir (Pers-TC)

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 342, dated 2nd August 2012—The President is pleased to make the following promotion :—

N Mangana to be Sr Stores Officer-II, Gp 'A' (Gazetted) on probation for two years in DRDO with effect from 12 April 2012 (F/N) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 5,400/-

VP SINGH
Dy Dir (Pers)

ARMY BRANCH

No. 343, dated 2nd August 2012—The President is pleased to permit the undermentioned officers to resigned their commission :—

TERRITORIAL ARMY

RESIGNATION

Lt Col Pradeep Kumar (TA-42237), Engr (TA), 21 Apr 2011

Lt Col S V Waghmare (TA-42236), Engr (TA), 15 Sep 2010

Maj A K Sinha (TA-42127), Engr (TA), 04 Sep 2008

Maj Vipul Kumar Jain (TA-42249), Engr (TA), 26 Aug 2011

Capt G S Bhawaria (TA-42247), Engr (TA), 10 Dec 2008

V RAJARAM
Under Secy